JAY BHARAT MARUTI LIMITED

Corporate Office:

Plot No. 9, Institutional Area, Sector 44, Gurgaon-122 003 (Hr.) T: +91 124 4674500, 4674550 F: +91 124 4674599

W: www.jbmgroup.com



Ref. No.: JBML/SE/Q2/2022-23

Dated: 4th July, 2022

BSF Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers,

Dalal Street,

Mumbai-400001

Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1, G Block,

Bandra Kurla Complex, Bandra (E)

The National Stock Exchange of India Limited

Mumbai- 400051

Scrip Code: 520066

NSE SYMBOL: JAYBARMARU

Sub:- Submission of Copies of Newspaper Publication- Intimation of Transfer of Equity Shares on account of unclaimed dividend of the year 2014-15 to Investor Education and Protection Fund Authority (IEPF)

Dear Sir/Madam,

In pursuant to the provision of Regulation 30 read with Para A of Part A of Schedule III and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, we are enclosing herewith, copies of the newspaper advertisements published in Jansatta (Hindi) in Delhi edition and Financial Express (English) in Delhi edition respectively for inviting attention of the shareholders of the Company towards transfer of equity shares to the Investor Education and Protection Fund on account of unclaimed dividend for the Financial year 2014-15 along with the copy of the letter dispatched to the shareholders of the Company as required under section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016.

Submitted for your information and records.

Thanking you.

For Jay Bharat Maruti Limited

Ravi Arora

Company Secretary

Plant I: Plot No. 5, MSIL, Joint Venture Complex, Gurgaon-122 015 (Haryana) T.: +91 124 4887200, F: +91 124 4887300

Plant II: Village & Post - Mohammadpur Narsinghpur, Sector 36, Gurgaon - 122 001 (Haryana) T: +91 124 4935300, F: +91 124 4935332

Plant III: Plot No. 15-16 & 21-22, Sector 3A, Maruti Supplier Park, IMT Manesar, Gurgaon -122 051 (Haryana) T: +91 9999190423, 9899079952

Plant IV: Plot No. 322, Sector - 3, Phase-II, GWC, Bawal - 123 501 (Haryana) T +91 8221004201, 8221004203

Regd. Office: 601, Hemkunt Chambers, 89, Nehra Place, New Delhi - 110 019 T: +91 11 26427104-06. F: +91 11 26427100

CIN: L29130DL1987PLC027342



Date. 18.06.2022

JAY BHARAT MARUTI LIMITED

(CIN: L29130DL1987PLC027342)

Registered Office: 601, Hemkunt Chambers,

89, Nehru Place, New Delhi – 110019, Tel. +91 11 26427104-06 Fax +91 11 26427100

E-mail id: jbml.investor@jbmgroup.com;Website:www.jbmgroup.com

IEPF-2014-15/MCS STA/JBML/UNPAID DIV/

RAMSWROOP KASHIRAM BAYLAN POST BAN MANDORI TALUKA FATEHBAD DIST HISSAR HARYANA 125001

Folio/DP-Client ID : 00000891 No. of Equity Shares: 400

Subject: - Intimation with respect to transfer of unclaimed shares u/s 124 (6) of the Companies Act, 2013 to the Investor Education and Protection Fund (IEPF)

Dear Shareholder(s),

Jay Bharat Maruti Limited has been declaring and paying dividend on its paid-up equity capital from time to time to its shareholders. The complete dividend details are available at its website i.e., www.jbmgroup.com

In reference to the captioned subject & in pursuant to Section 124(6) of the Companies Act, 2013 ("Act") read with Rule 6 (3) of Investors Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016("Rules"), as amended from time to time, shares on which dividend has not been paid or claimed by a shareholder for a period of seven consecutive years or more, shall be transferred to demat account of the Investors Education and Protection Fund ('IEPF Account') constituted in accordance of the Rules. Upon transfer of such shares, all corporate benefits accruing on such shares shall also be credited to the IEPF Account and the Voting Rights on such shares shall remain frozen till the rightful owner claims the shares.

As per the records of the Company, you have not claimed the dividend declared by the Company for a period of seven consecutive years or/and more and therefore your shares are liable for transfer to the IEPF Account.

Please take note that unclaimed or unpaid dividend which have already been or the shares which are being transferred by the Company to IEPF Fund or IEPF Account including all benefits accruing on such shares, if any, can be claimed back by the shareholders from Investors Education and Protection Fund Authority ('IEPFA') by following the procedure given on the website of IEPFA i.e. http://iepf.gov.in/IEPFA/refund.html

We, therefore, advise you to claim your unclaimed or uncashed dividends for the financial year 2014-15 and onwards by making an application to either Company at above mentioned address or email id at ibml.investor@jbmgroup.com or Registrar and Share Transfer Agent of the Company at their following address by not later than **Thursday, 22nd September, 2022** so that your equity shares will not get transferred to the demat account of the IEPF Authority.

MCS Share Transfer Agent Ltd, F-65, Ist Floor, Okhla Industrial Area, Phase I, New Delhi 110 020, Tel: 011 4140 6149, E-mail: helpdeskdelhi@mcsregistrars.com

In case you have already encashed the dividend, please ignore this letter.

Thanking you,

Yours Sincerely,
For Jay Bharat Maruti Limited
Sd/Ravi Arora
Company Secretary

Date of

Demand Notice

Demand Notice

Authorised Officer

Central Bank of India 1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911 STRESSED ASSET MANAGEMENT BRANCH, JEEVAN TARA BUILDING, 5 - PARLIAMENT STREET, NEW DELHI-110001

Public Notice for e-Auction for Sale of Immovable Property Offer is invited by Central Bank of India, SAM Branch New Delhi at the behest of Bank of Maharashtra, Punjab National Bank, Canara Bank (e Syndicate Bank), State Bank of India (e SBBJ), Federal Bank, South Indian Bank and National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India (NAFED), for sale of Prime Industria Immovable Property more particularly described hereunder:-

Details / Status of the Reserve Earnest Bid Increase Money Price (Rs.) Immovable Property Amount (Rs. Deposit (Rs 142.50 25.00 Industrial Plot No. 4 to 8, Block A, 14.25 Lawrence Road Industrial Area Delhi-35, Crore Crore Lakh Admeasuring 15957.70 Sq.Yds. In the name of National Agricultural Co-operative Marketing Federation of India. (NAFED)

Date of Auction: 16.07.2022 (Saturday) Time: 11:00 A.M. to 4:00 PM Date of Property Visit on 14.07.2022 (Thursday) Time: 10:00 AM to 5:00 PM Authorised Officer & Contact No.- Mr. G. N. Roy, Mob. No.: 9023054570 The sale will be done by the undersigned through E-Auction platform provided at the websit

https://www.mstcecommerce.com on 16.07.2022 (Saturday) between 11:00 AM to 04:00 PM with extension time of 10 Minutes each. EMD to be deposited in Global EMD Wallet through NEFT/RTGS/Transfer (after generation of challan from https://www.mstcecommerce.com). This publication is only an abridged form of notice. E-Auction will be conducted through e-Bikray portal. Eauction will be held "As is where is", "As is what is" and "whatever is there is" basis. Interested bidder may deposit pre-bid EMD with MSTC before the close of e-auction. Credit of pre-bid EMD shall be given to the bidder only after receipt of payment in MSTC'S Bank Account and update of such information in the e-auction website. This may take some time as per banking process and hence bidders, in their own interest, are advised to submit the pre bid EMD amount well in advance to avoid any last minute problem. The successful bidder shall have to deposit 25% (Twenty Five Percent) of the bid amount, less EMD amount deposited through NEFT/RTGS in A/c,-3774823433, IFSC-CBIN0285132 in the name of RTGS intermediatory for R-41, on the same day but not later than seven (7) working days and the remaining amount 75% shall be paid within 30 days from the date of confirmation of sale or as per the request of the bidder but not late. than 3 months. Sale confirmation of Successful Bidder will be done within 7 working Days by the Bank To the best of the knowledge of banks & as informed by NAFED, there are no encumbrances on the property, however the bidders may make their independent enquiries. Under no circumstances (including the case of sole bidder for any secured asset) the secured asset will be sold at the reserviprice or below thereof. Minimum one bid increment amount is mandatory. For detailed terms and conditions please refer to the link provided in www.centralbankofindia.co.in. Secured Creditor of Auction Platform [https://mstcecommerce.com] Helpline No.033-22901004. For any query related to property please contact Mr. G N Roy on Mob: 9023054570 e-mail ID

Authorised Officer, Central Bank of India, Stressed Asset Management Branch, New Delhi Date: 01.07.2022

JAY BHARAT MARUTI LIMITED (CIN: L29130DL1987PLC027342)

Registered Office: 601, Hemkunt Chambers, 89, Nehru Place, New Delhi - 110019 Tel. +91 11 26427104-06 Fax +91 11 26427100



Transfer of Equity Shares of the Company to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority

This Notice is published pursuant to the provisions of section 124(6) of the Companies Act, 2013 ('Act') read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, as amended from time to time ('the Rule').

respect of which dividend has not been paid or claimed for seven consecutive years or more are required to be transferred by the Company to the demat account of the Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority, Individual communication has been sent to all shareholders whose shares are liable to be transferred to IEPF under the said Rules at the latest available address.

payable on its website www.jbm-group.com full details containing names of such shareholders and their folio number or DP ID- Client ID with their shares liable to be transferred to the demat account of IEPF Authority.

Shareholders are requested to note that both the unclaimed dividend and the shares transferred to IEPF including all benefits on such shares, if any, can be claimed back by them from IEPF Authority after following the procedure prescribed by the IEPF

into the DEMAT account of the IEPF Authority then such shares will not be available to the shareholder for sale or transfer or dealt with in any manner except as per the process and provisions as prescribed in the aforementioned rules of section 124(6) of the Companies Act, 2013. It may be noted that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend and shares transferred to IEPF pursuant to IEPF Rules. However, the shareholders can claim back the unclaimed dividend amount and respective shares by making an application in web based form IEPF-5 on payment of requisite fees and following the procedure prescribed in the Rules available on IEPF website i.e., www.iepf.gov.in

be transferred to IEPF.

Year 2014-15 is 22st September, 2022, so Shareholders are requested to claim unpaid dividend on or before 22" September, 2022 failing which the Company will be compelled to transfer the shares to the IEPF without any further notice, with a dividend either to the Company at above address or to MCS Share Transfer Agent Limited, Registrar & Share Transfer Agent of the Company at MCS Share Transfer Agent Ltd. at F-65, 1", Floor, Okhla Industrial Area, Phase-I New Delhi-110 020 or email at jbml.investor@jbmgroup.com or ravi.arora@jbmgroup.com.

For Jay Bharat Maruti Limited

(Ravi Arora) Company Secretary &

Date: 29.06.2022 Place: Gurugram

TITAN BIOTECH LIMITED

Bhiwadi, Rajasthan-301019, Tel: 011-27674615 | E-mail: hrd@titanbiotechltd.com Website: www.titanbiotechltd.com

We wish to inform you that as per record of the company and details submitted by concerned bank, dividend for 2014-2015 is still unclaimed of few shareholders.

As per Section 124 of the Companies Act, 2013 read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 and Secretarial Standard issued by ICSI, the amount of dividend(s) remaining unclaimed for a period of 7 (Seven) years from the date it become due, is required to be transferred to the Investor Education & Protection Fund ("IEPF") established by Central Government Details of the unclaimed dividend is updated in website of company and reminder letter have also been sent from time to time to shareholders to claim their unpaid dividends Further all the shares in respect of which dividend has remained unclaimed for sever consecutive years or more shall also be transferred to IEPF.

including core banking account no. and IFSC/MICR of your bank against the demat account with your Depository Participant / Registrar and Share Transfer Agent - Beetal Financial & Computer Services Private Limited. Please submit your claim by executing the enclosed Letter of Undertaking/indemnity complete in all respect or stale dividend warrant for claiming the same latest by Friday, 30th September, 2022. In case you have already claimed your dividend, please ignore this letter. For Shares held in demat form:

Copy of the demat account statement (client master list) showing name, address, demat and bank account details registered against the demat account with Letter of

Undertaking/indemnity. For Shares held in physical form:

Original cancelled leaf bearing the name of the first shareholder or

Bank Attested copy of first page of bank passbook/statement of account in origina

Copy of pan and aadhar of the shareholder(s)

Letter of Undertaking/indemnity

holding shares in physical form are required to send duly filed Forms No. ISR-1, Forms No. ISR-2, and Forms No. SH-13 and other supporting documents including original cancelled cheque stating their name as the Account holder along with request letter. Kindly ignore this if you have already furnished the required information to RTA. The above forms can be downloaded from this link https://titanbiotechitd.com/investor/ important-information/

We would further like to state that any future dividend / benefits, if any, in respect of shares so transferred shall also be credited to the IEPF. No claim shall lie against the Company or its Registrar in respect of unclaimed dividends and shares transferred to IEPF pursuant to the said IEPF Rules

Members whose shares are liable to be transferred to the Authority and holding shares

certificate(s) in lieu of the original share certificate(s) held by them for the purpose of transfer of shares to the Authority as per the Rules and upon such issue, the original share certificate(s) which are registered in their name shall stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable.

way of corporate action for transfer of shares in favour of the Authority.

are entitled to claim the same from IEPF by submitting an online application in the prescribed form No. IEPF-5 available on the website www.iepf.gov.in as per procedure prescribed by IEPF Authority. For any further query please feel free to contact Company Secretary Department, Titar

Biotech Limited at 011-49096502 or 011-27355742 or email at cs@titanbiotechltd.com


For Titan Biotech Limited Date: 01/07/2022



DELHI JAL BOARD

OFFICE OF THE ADDL. CHIEF ENGINEER M-3 **DELHI JAL BOARD: GOVT. OF NCT OF DELHI** H-BLOCK: SECTOR-15: ROHINI: DELHI-89

SHORT PRESS NIT No.06/ (E&M)M-3/2022-2023)



ISSUED BY P.R.O. (WATER)

"STOP CORONA; Wear Mask, Follow Physical Distancing, Maintain Hand Hygiene"



Loan No/Borrower(s).

Shubham Corporate Office : 425, Udyog Vihar Phase IV, Gurgaon-122015 (Haryana) Ph. : 0124-4212530/31/32, E-Mail: customercare@shubham.co website : www.shubham.co

POSSESSION NOTICE (FOR IMMOVABLE PROPERTIES)

Whereas the undersigned being the authorized officer of the Shubham Housing Development Finance Company Limited (hereinafter called Shubham) under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued demand notice calling

The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described hereinbelow in exercise of powers conferred on him under Section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the SecurityInterest Enforcement) Rules, 2002. The borrowers in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealing with the property will be subject to the charge of Shubham Housing Development Finance Company Limited for an amount detailed below and interest thereon.

upon borrowers to repay the amount within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrower's attention is invited to provisions of sub section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets. Details are as below:

No.	Co-Borrower	Notice Amount	Demand Notice	OUT TO THE STATE OF THE STATE O	Affixation
1.	0MHV1909000005022655, Legal Heirs (Late Sh. Raju Kumar Rai), Poonam Devi	Rs. 4,96,316/-	24-11-2021	Plot No 23, Khasara No 43/4, Village Hastal, Mohan Garden Block K-5 Extn Uttam Nagar, New Delhi -110059	30/06/2022
2.	0DEL1811000005016124, Legal Heirs (Late Sh. Trilok Chand), Shashi Bala	Rs. 1,87,787/-	24-11-2021	Property No-1245, First Floor Portion Without Roof Rights, Gali Jaipura, Shora Kothi, Subzi Mandi North Delhi - 110007	30/06/2022
3.	0MDG1704000005005476, Ompal Prajapati, Pushpa	Rs. 13,62,171/-	20-04-2022	Property Bearing No. G-74 Ground Floor Without Terrace Rights Khasra No. 222, Village Harkesh Nagar, South Delhi - 110020	30/06/2022
4.	0SHD2009000005029826, Mohit Kumar, Lokesh Kumar, Nikhil Kumar	Rs. 10,63,686/-	20-04-2022	Flat bearing No. F-4, First Floor (LIG) Plot No. B-1/66 DLF Dilshad Extension-2 village Brahmpura Bhopara, Pargana Loni, Tehsil and District, Ghaziabad Uttar Pradesh -201005	30/06/2022
5.	DEL_1501_033116, Mahesh Kumar, Rajshree, Dinesh Kumar, Kavita Devi	Rs. 2,15,9884	20-04-2022	Municipal No - 244, Ward No - VI Second & Third Floor With Roof Right Gal Fathepuri Central Delhi-110006	30/06/2022
6.	DEL_1402_018993, Deepak Kumar, Chandra Vinda	Rs. 1,98,946/-	20-04-2022	Khasra No 1010 New Subhash Park Village- Makanpur Pargana Loni Ghaziabad Uttar Pradesh -201102	30/06/2022

Authorized Officer Place: - Gurgaon, SHUBHAM HOUSING DEVELOPMENT FINANCE COMPANY LTD. Date:- 01-07-2022



PUNJAB NATIONAL BANK Circle SASTRA Centre: Ludhiana , Site No.5, Near Wave Mall, Ferozepur Road, Ludhiana. E-MAIL: cs4540@pnb.co.in, TEL: 0161-2550270/ 2550275

Description of Date of Date of Nature of Possession

parcel of Equitable Charge over the Property Rs.11,11,753.86/-

as per jamabandi for the year 2002-03 situated at on 08-09-2021 with

Suresh Kumar, Mr. Mohinder Pal vide Sale deed 01.09.2021 less

contractual rate plus other expenses and charges accrued, thereafter until

Rule-8(1) POSSESSION NOTICE (For Immovable Property) Whereas, the undersigned being the Authorized officer of the Punjab National Bank, Circle SASTRA Centre

Ludhiana under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13 read with Rule 3 of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notices U/S 13(2) dated mentioned as below calling upon the borrower(s)/ Guarantor(s) to repay the amount mentioned in the Notice(s) being within 60 days from the date of receipt of the said Notices.

The borrower(s)/ Guarantor(s)/ Mortgager(s) having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower(s) of the property and the public in general that the undersigned has taken (Physical/Symbolic) Possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Section 13(4) of the Said Act read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, on these dates mentioned against below accounts.

The borrower(s)/ Guarantor(s) in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property(ies) will be subject to the charge of the Punjab National Bank Circle SASTRA Centre, Ludhiana for an aggregate amount of as mentioned below + future interest thereon and costs, etc.

The borrowers/Guarantors/Mortgagers attention is invited to provision of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured assets

the Mortgage | Demand Possession

All that is part & 08.09.2021 29.06.2022

mortgage Factory Land and Building measuring

1000 Sq. Yards bearing Plot no. P.E -28,

comprised in Khasra no. 15//11/1, 11/2, 18, 19,

20/1, 16//15, 15//27, Khata no. 239/258, 242/261

Village Mangli Nichi Tehsil and Distt. Ludhiana

standing in the name of Mr. Parveen Kumar, Mr.

bearing Wasika no. 14629 dated 19/02/2008.

Property/ies Notice Notice

Sr. No.	Name of the Borrower/Guarantor /Owner of Property
1.	Borrower(s): Mr. Parveen
Ku	mar S/o Mr. Ram Murti, Mr.
Su	resh Kumar S/o Mr. Ram
Mu	arti and Mr. Mohinder Pal
S/d	Mr. Ram Murti all are R/o
H.	No. B-V-389, Chajju Mal
Ma	arket, Nikka Mal Saraf
Ch	ownk, Near Chaura Bazaar,
Lu	dhiana and M/s Arrow
In	dustries, #81-13/2,
Inc	fustrial Area-A Extension,
Lu	dhiana, Arrow Industries,
400	E. 28, Premier Complex,

Mangali Nichi, Ludhiana

Sh. Gurcharan Singh s/o Sh. B-XXI-7777/1 measuring 235 Sq. Yds, comprised Bishan Singh, Sh. Mandeep in Khasra no. 5750/643, 5751/643, Khatta no. Singh s/o Sh. Gurcharan 257/327, as per jamabandi for the years 1980-Singh and Sh. Hardeep Singh | 1981, situated at Gill-2, Tehsil & Distt Ludhiana, as s/o Sh. Gurcharan Singh all per sale deed wasika no. 592 dated 11.04.1986 & are r/o H. No. 7777/1, New sale deed wasika no. 7117 dated 25.07.1986, Guru Angad Colony, Street No. standing in the name of Sh. Gurcharan Singh s/o Janta Nagar, Ludhiana Sh. Bishan Singh

payment in full.

2. Borrower(s)/guarantor(s):- One House MC No. 16.02.2022 29.06.2022 Symbolic possession interest & other charges w.e.f. 01.02.2022 at the contractual rate plus other expenses and charges accrued.

Rs. 51,61,312.05 (Rupees Fifty One Lacs Sixty One Thousand Three Hundred Twelve and Five Paise Only) as on 16.02.2022 with interest charged up to 31.01.2022 and further

(Rupees Forty Three

One Hundred Thirty Six

and Eighty Six Paise

at the contractual rate

Symbolic possession

Rs. 16,77,348.82/-

(Rupees Sixteen Lacs

Seventy Seven

Thousand Three

Hundred Forty Eight and

Eighty Two Paise Only)

as on 30/11/2021 at the

contractual rate plus

Rs. 57,70,728.02

(Rupees Fifty Seven

Lacs Seventy Thousand

Seven Hundred Twenty

Eight and Two Paise

Only) as on 31.03.2021

plus further interest &

other charges w.e.f.

(Rupees Twenty Seven

Charges w.e.f

contractual rate plus

Amount

Outstanding

Symbolic possession

(Rupees eleven lakh

eleven thousand seven

hundred fifty three and

paise eighty six only) as

interest upto 31.08.2021

and further interest w.e.f.

recoveries if any at the

thereafter until payment in full. Total Property i.e. 31.12.2021 29.06.2022 Symbolic possession 3. Borrower(s):- Sh. Sushil Shop-Cum-Residential House measuring 0- 4 Rs. 43,90,136.86/-Gajodhar Parsad and Smt. Biswa (200 Sq. Yds.), comprised in Khasra no. Anita w/o Sh. Sushil Kumar | 1508/1139(1-8), 1510/1140(6-6), Kitte- 2, Khatta | Lacs Ninety Thousand both are r/o, Jaipura Road, no. 23/38, as per jamabandi for the years 2006-Guru Nanak Music Centre, 2007, situated at Village Haraichan, Hadbast No. Doraha, Ludhiana-141421 248, Tehsil Payal, District Ludhiana. As per sale Only) as on 30.11.2021 and (Guarantor): Sh. Ram | deed wasika no. 443 dated 24/05/2011 (Land area |

Charitra s/o Sh. Surya 2 Biswa 13 Biswasi) and As per sale deed wasika plus other expenses and Parsad, r/o H. No. 777, Boparai no. 1450 dated 27/07/2012 (Land area 1 Biswa 7 charges accrued) Road, Doraha, District Biswasi), standing in the name of Sh. Sushil thereafteruntil payment bounded as under:- East: Manjit Kaur 20'-00", West: Passage 22'-00", North: Owner Self 82'-00", South:

4. Borrower(s):- M/s Simran Factory Land & 31.12.2021 29.06.2022 Agro Engineering, 12944, Building measuring 317 Sq. Yds., comprised in Vishawkarma Colony, Street Khasra No. 854, Khatta No. 49/58, as per No. 16, Ludhiana- 141003 jamabandi for the year 1999-200, situated at through its proprietor Sh. Jaspal Bangar, Hadbast No. 259, Industrial Area-Parminder Singh s/o Sh. C, Kanganwal Road, Near Vridhi Dharamkanda, Jaswant Singh and Opposite Jindal Fibres, Tehsil & District Ludhiana. (Guarantor): Smt. Jaswinder Boundaries as under: East: Factory 49'-03", Kaur w/o Sh. Parminder West: Street 27' wide 50', North: Neighbour 58'-Singh both are r/o H. No. 0", South: Saranjit Kaur 57'-6", As per sale deed

Sh. Parminder Singh. 5. Borrower(s):- M/s R M [Publication 11.06.2021 29.06.2022 Physical possession Date of Demand Notice 29.01.2022] Sales Corporation through its proprietor Sh. Jasjit Singh | Property measuring 2 Kanal- 4 Marla (1331 Sq. Riat, s/o Sh. Jagpal Singh Yds.) being 44/487 share out of total property Riat, r/o H. No. 104, Ward No. measuring 24 Kanal- 7 Marla, comprised in 9, Chandigarh Road, Samrala Khewat No. 546, Khatauni No. 649, Killa No. 51//1, and Smt. Gasdeep Kaur w/o 8/1, 9/2/1/2, 9/2/2, 10, 12/1/1, 12/1/3, 52//5/2, Sh. Jasjit Singh Riat, r/o H. 6/1/2, as per jamabandi for the year 2015-2016. No. 104, Ward No. 9, situated at Village Bondli, Hadbast No. 107, Tehsil Samrala, District Ludhiana within the Municipal 01.04.2021 and interest

Kanda, Tajpur Road, 15//21/2, 16//1/2, 10/1, 17//5/3, Khatta No.

Ludhiana through its 623/677, as per jamabandi for the year 2011-2012, Lacs Five Thousand proprietor Sh. Sandeep situated at Village Jamalpur Awana, Hadbast No. Two Hundred Nineteen Thapar s/o Sh. Mangat Rai 177, Locality Known as Jaiswal Complex, Kaka and Eighteen Paise Thapar, r/o H. No. 814, Urban Road, Tehsil & District Ludhiana and bounded as Only) as on 31.07.2021 Estate, Phase- II, Jamalpur under: East: Government Passage 16-1/2 wide further interest & other 35', West: Street 30' wide 35, North: Neighbour 60'-0", South: Neighbour 60'-0", As per sale deed wasika no. 592 dated 01/08/2021 plus further 06/04/2018, standing in the name of Sh. Sandeep Thapar s/o Sh. Mangat Rai interest at the

other expenses & charges accrued, thereafter until payment in full PLACE. LUDHIANA

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया Central Bank of India SERVING TO YOU SINCE 1911"

Central Bank of India

Branch Office: Daresi Road, Shivpuri, Ludhiana

DEMAND NOTICE

Notice under Section 13(2) of the Securitisation and reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act-2002 A notice is hereby given that the following Borrowers(s)/Guarantors have defaulted in the repayment of

principal and payment of interest of credit facilities obtained by them from the bank and said facilities have turned Non Performing Assets. The notice under section 13(2) of Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 were issued to Borrower(s)/Guarantor(s) on their last known addresses. However in some of the cases the notices have been returned un-served and in other cases acknowledgment has not been received and notice was pasted on their registered address, as such they are hereby informed by way of public notice about the same Details of mortgage Amount of

Property/ies

Name of Borrower(s)/Gurantor(s)

S.R. Embroidery) W/o Sh. Bhupinder Jindal, R/o Plot No. 76,Star R/o Plot No. 76, Star Sh. Bhupinder Jindal. 1/2-2-8/2-9-10-11-12/1-12/2-12/3-13-18-19-20-22/1-22/2-23/1-23/2,21//15-16-

Borrowers: Smt. Property 1: Plot No. 76 measuring 29.06.2022 01.07.2022 Rs. 1,39,72,452/ Sharda Jindal (Prop. 200 Sq. Yards, Khasra No.15//21/2, 20//1/1- along with interest on monthly rests 1/2-2-8/2-9-10-11-12/1-12/2-12/3-13-18-19- to be calculated from 02.07.2022 20-22/1-22/2-23/1-23/2, 21//15-16-25, 27//5/1-5/2-16/1-25/2, 28//1/1/1-1/1/2-2/2 3/1-3/2-8/1-8/2/1-8/2/2-9/1/1-10/2/12/1/2-13/2/2, Khata no.320/321 as per jamabandi for the year 2006-07, Situated within revenue estate of Village City, Tibba Road, Kuliewal, Tehsil & Distt. Ludhiana vide sale deed bearing Wasika no. 13767 dated Ludhiana. Guarantor: 21/02/2003 and bounded as under:- East: Street, West: Neighbour, North: Other Sh. Bhupinder Jindal owner, South: Street 50' wide, standing in the name of Smt. Sharda Jinadal W/o City, Tibba Road, Property 2. Plot no. 46 measuring 200 Sq. Yards, Khasra No.15//21/2, 20//1/1

Date of

NPA

Ludhiana. 25, 27//5/1-5/2-16/1-25/2, 28//1/1/1-1/1/2-2/2-3/1-3/2-8/1-8/2/1-8/2/2-9/1/1 10/2/12/1/2-13/2/2, Khata no.320/321 as per jamabandi for the year 2006-07, Situated within revenue estate of Village - Kuliewal, Tehsil & Distt. Ludhiana vide sale deed bearing Wasika no. 14560 dated 19.03.2002 and bounded as under :- East: Plot No. 76(Sharda Jindal), West: Road, South: Street 50' wide, North: Other owner, Standing in the name of Sh. Bhupinder Kumar

1. Sh. Sanjeev Goyal Property measuring 107.00 Sq 28.06.2022 01.07.2022 Rs. 44,80,401/-(Partner/Guarantor), Yards, Comprised in Khata No.129/143, As along with interest on monthly rests R/o Plot No. 19,Street per Jamabandi for the year 1976-77(Khata to be calculated from 02.07.2022 No. 8-1/2, New Ganesh no. 189/200 as per jamabandi for the year 2011-12), Khasra No. 675/200min

Puri, Shivpuri, stuated at Taraf Sekhewal, Hadbast no.78, Tehsil & Distt. Ludhiana as per sale Ludhiana -141008. deed wasika no. 12521 dated 09.12.1985 and bounded as under: East: Bishan 2.Smt. Rakesh Rani Dyal, West: Jaspal Singh, North: Neighbour, South: Street 20' wide. Standing in (Partner/ Guarantor) the name of Rakesh Rani W/o Kamal Kishore. W/o Sh. Kamal Kishore, R/o Plot No. 19, Street No. 8-1/2, New Ganesh Puri, Shivpuri, Ludhiana,

Now by way of this publication by the undersigned in his capacity as the Authorised Officer of Secured Creditor (the Bank) as per provision of the securitisation Act. 2002 call upon you to repay the outstanding liability amount with future interest and expenses / charges as applicable, within a period of 60 days from the date of publication of this notice, failing which the Secured Creditor will exercise any or all of the rights as detailed under sub section (2) of section 13 and under other applicable provisions of the said ordinance.

You are also put on notice that in terms of Section 13 of the said act you shall not transfer by sale, lease or otherwise the said secured assets without obtaining written consent of the Bank. This notice is without prejudice of the Bank's right to initiate such other actions or legal proceedings as it

deems necessary under any other applicable provisions of Law. Your attention is invited to provisioning of Sub Sec(8) of Sec(13) of the act in respect of time available to you to redeem the secured assets.

DATE: 01.07.2022 Place: Ludhiana

13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured assets.

PUNJAB NATIONAL BANK Circle SASTRA Centre: Ludhiana, Site No.5, Near Wave Mall, Ferozepur

Road, Ludhiana. E-MAIL: cs4540@pnb.co.in, TEL: 0161-2550270/ 2550275 Rule-8(1) POSSESSION NOTICE (For Immovable Property) Whereas, the undersigned being the Authorized officer of the Punjab National Bank, Circle SASTRA Centre Ludhiana under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13 read with Rule 3 of Security Interest

Description of Date of Date of Nature of Possession

iamabandi for the year 2016-17, situated at village only Four as on

District Ludhiana, As per sale deed Wasika no. contractual rate plus

1514 dated 12.11.2010 standing in the name of other expenses &

darshan Singh S/o Puran Singh Boundaries as charges accrued,

(Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notices U/S 13(2) dated mentioned as below calling upon the borrower(s)/ Guarantor(s) to repay the amount mentioned in the Notice(s) being within 60 days from the date of receipt of the said Notices. The borrower(s)/ Guarantor(s)/ Mortgager(s) having failed to repay the amount, notice is hereby given to the

borrower(s) of the property and the public in general that the undersigned has taken (Physical/Symbolic) Possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Section 13(4) of the Said Act read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, on these dates mentioned against below accounts. The borrower(s)/ Guarantor(s) in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property(ies) will be subject to the charge of the Punjab National Bank

Circle SASTRA Centre, Ludhiana for an aggregate amount of as mentioned below + future interest thereon and The borrowers/Guarantors/Mortgagers attention is invited to provision of sub-section (8) of section

the Mortgage Demand Possession

Property/ies Notice Notice

Borrower/Guarantor /Owner of Property

1. (Borrower/s):-Sh. Darshan | Total Property | 04.09.2017 | 29.06.2022 | Symbolic possession Singh S/o Puran Singh & sh. | measuring 0k- 10M (36'×75') being 10/821 Share Varinder Singh S/o out of total land 41k - 1M comprised in knewat no. Sh.Darshan Singh, 1st 857, Khatauni No.991, Khasra no.69//12/2-13/3-Address: House No. 4178, 14/1-16/2-17/2-18/1-19-2/3-23/4-24/1-24/2 as per One hundred Twenty street no. 4, Chandigarh Road, Gobind Colony, Jamalpur, Macchiwara -2, H.B. No. 75 (New Kalgidhar 31.08.2017 plus further Focal Point, Ludhiana. 2nd Enclave) Sub Tehsil Macchiwara Tehsil Samrala interest at the Address: Kalgidhar Enclave, Macchiwara, Tehsil samrala, District Ludhiana

under: East- Giaspura Wale, West- Ram Singh Kalra, North-Amarjit Singh, South- | thereafter until payment Street 25' wide

R/o H. No. 690/6, Ward No. 37, dated 06.04.2010 CMC Road, kucha Anayat, Ludhiana-141008.

Chakki, Rahon Road,

Ludhiana

X/681, Iqbal ganj Chowk, dated 12-04-2012 respectively."

Bagga Kalan, Central Post Office, Ludhiana

2. (B o r r o w e r ' s & One House M.C No. 15.02.2021 29.06.2022 Symbolic possession Mortgagor's):- M/s Supreme B- 11-1737/7 (New), M.C No. B-11-690/6 (Old.) Trading company, Address: Measuring 113 sq. yards, situated at taraf saidan, 122- R. Model Town, Ludhiana- Ahata Tikka Jagjit Singh, inside Close Road, Near 141001. Through it's kucha Anayat, Tehsil & District Ludhiana. Proprietor Sh. Harvinder Standing in the name of Harvinder Singh S/o One only) As on Singh S/o Sh. Sham Singh, Sham Singh, as per wasika sala deed No. 147

Fifty Five lacs One Thousand One Hundred Ninety One and forty 30.11.2020 plus further interest & other Charges w.e.f. 01.12.2020 & charges accrued, thereafter until payment in full.

Rs. 55,01,191,41/- (Rs.

Outstanding

Twenty ninety lacs

Ninety Three Thousand

Borrower's/Guarantors: One House M.C.No. 25.02.2022 29.06.2022 Symbolic possession All that is part & parcel of the Property measuring M/s Balaji Shawls through its Prop. Sh. Vikas Sehgal | 500 Sq. Yds. comprising of two title deeds of 250 Address as: Vardhman Nagar, Sq. Yds x2= 500 Sq. Yds., bearing Khasra nos. Gali No. 9, Near Darshan Atta 121, Khata nos. 936/1083 to 1087, Jamabandi of the year 2008-09. Hadbast no. 166, vakia taraf Hundred Fourty Six & Ludhiana. And (Mortgagor/ Gehlewal, Tehsil & Distt. Ludhiana, Situated at Paise Eighty Nine Guarantor): (i) Smt. Geeta Vardhman Nagar, Abadi Punjab Vihar Colony, Only) as on 31-01-Sehgal wife of Sh. Vikas Near Darshan Atta Chakki, Rahon Road, 2022 plus future Sehgal, (ii) Smt. Preeti Ludhiana, owned by Smt Geeta Sehgal wife of interest & other Sehgal wife of Sh. Sandeep | Sh. Vikas Sehgal and Smt. Preeti Sehgal wife of | charges thereon w.e.f Sehgal, Both R/o House no. B- | Sh. Sandeep Sehgal vide Wasika no. 730 & 727

Rs. 18.81.146.89/-(Eighteen Lakh Eighty One Thousands One 01.02.2022 untill payment in full.

4. (Borrower/s):- M/s Shri (1). Hypothecation 19.01.2022 29.06.2022 Symbolic possession of Stock of auto part, scooters etc. lying at the Rs. 29, 98, 651.07 Krishna Auto # Vill Bardhala. borrower's premises / godown and Book Debts (Rupees Twenty nine P.O. Manki, Tehsil Samrala, Receivables. (2). IP measuring 1K- 0M (605 takhs Ninety eight Distt. Ludhiana through its sq. yards) comprised in Khewat No 65, Khatouni thousand Six hundred partners Sh. Avtar Singh No 73, Khasra No. 34/1 as per jamabandi for the year 2016-17 situated in the revenue estate of only) as on 31.12.2021 S/o Amarjit Singh & Smt. Jasvir Kaur w/o Avtar Singh Samrala (HB No 127), Distt. Ludhiana registered with interest upto both R/o H.no. 317, Kamal vide vasika No 2009 dated 18.03.2016 in the name Colony, Ward no. 12, Khanna of Sh. Avtar Singh s/o Sh. Amarjit Singh. road, Samrala, Distt.

31.12.2021 plus further

interest & other expenses w.e.f. 01.01.2022 until payment in full. 5. (Borrower/s):- Sh. Sunil (1). EQM of 17.01.2020 29.06.2022 Rs.15,27,165.00 (Rs. Chhabra s/o Jetha Nand # Nai residentia property H.no. 861/25, New Abadi, Fifteen lakhs Twenty

Abadi Khanna Kalan, Distt. Khanna, Total area measuring 0K-3-3/4M i.e. seven thousand One 123.66 sq.yds. Comprised in Khewat no. 1601, hundred sixty five only) Khatauni no. 2205, Khasra no. 424/3(0-18), 424/2/2(1-4), Kitte 2, its 2-1/2/42 share as on 31.12.2019 plus

i.e. 0K-2-1/2M out of land 2K 2M and its 1/4 share i.e. 0K-1-1/4M out of land 0K 5M further interest & other having Khewat no. 1596 Khatauni no. 2200 Khasra no. 422/10(0-5) as per expenses w.e.f. jamabandi year 2006-2007, HB no. 223 situated at Khanna Kalan, Tehsil Khanna, Distt. Ludhiana registered vide sale deed wasika no. 6392 Dt. 23.02.2011 in the payment in full. name of Sh. Sunii Kumar s/o Jetha Nand. Type of Possession Physical (2). EQM of commercial plot

measuring 0K 7-1/3M out of land 0K-7M comprised in Khata no. 282/526 to 528 Rect. No. 75 Killa no. 5(8-0), 6(8-0), 15(8-0), 16(8-0) Rect. no. 76 Killa no. 25/1(1-4), 26(1-0) Rect. No. 77 Killa no. 11/2(4-16) and Rect. No.72 Killa no. 8(8-0), 9(8-0), 10(8-0), 12(8-0), 13(8-0), 14(8-0), 15/2(2-9), 16(8-0), 17(8-0), 18(8-0), 19(8-0) and Rect. No.75 Killa no. 3(8-0), 4(8-0), 7(8-0), 8(8-0), 13(8-0), 14(8-0), 17/1(7-7), 18/1(2-16), 24/1 (0-16), 25/1(2-7) as per jamabandi year 20122013 situated at vill. Khanna Kafan, Tehsil Khanna, Distt. Ludhiana registered vide sale deed wasika no. 2583 Dt. 12.12.2014 in the name of Sh. Sunil Chhabra s/o Jetha Nand.

[Borrower/s):- M/s Mosaic (1). EQM of 03.10.2019 29.06.2022 Rs. 25.06.471.40/-Fabrics Pvt.Ltd. # 1st Floor, residential property H. No. 861/25, New Abadi, Pal Singh s/o Jeet Singh

Type of Possession Symbolic

Old Canara Bank Building, G.T. Khanna. Total area measuring 0K-3-3/4M i.e. thousand four hundred Road, Khanna, through its 123.66 sq.yds. comprised in Khewat no. 1601, seventy one and paisa directors Sh.Sunil Chabbra Khatauni no. 2205, Khasra no. 424/3(0-18), S/o Jetha Nand and 424/2/2(1-4), Kitte 2, its 2-1/2/42 share i.e. 0K-2-(Guarantors): Sh.Surinder 1/2M out of land 2K 2M and its 1/4 share i.e. 0K-1- interest & other 1/4M out of land 0K 5M having Khewat no. 1596 expenses w.e.f. Khatauni no. 2200 Khasra no. 422/10(0-5) as per jamabandi year 2006-2007, HB no. 223 situated at Khanna Kalan, Tehsil Khanna, Distt. Ludhiana registered vide

(Rs.Twenty five lakh Six forty only)as on 30.09.2019 plus further 01.10.2019 until payment in full.

AUTHORISED OFFICER

sale deed wasika no. 6392 Dt. 23.02.2011 in the name of Sh. Sunil Kumar s/o Jetha Nand. Type of (2). EQM of commercial plot measuring 0K 7-1/3M out of land 0K-7M comprised in Khata no. 282/526 to 528 Rect. No. 75 Killa no. 5(8-0), 6(8-0), 15(8-0), 16(8-0) Rect. no. 76 Killa no. 25/1(1- 26(1-0) Rect. No. 77 Killa no. 11/2(4-16) and Rect. No.72 Killa no. 8(8-0), 9(8-0), 10(8-0), 12(8-0), 13(8-0). 14(8-0), 15/2(2-9), 16(8-0), 17(8-0), 18(8-0), 19(8-0) and Rect. No.75 Killa no. 3(8-0), 4(8-0), 7(8-0), 8(8-0), 13(8-0), 14(8-0), 17/1(7-7), 18/1(2-16), 24/1 (0-16), 25/1(2-7) as per jamabandi year 20122013 situated at vill. Khanna Kalan, Tehsil Khanna, Distt. Ludhiana registered vide sale deed wasika no. 2583 Dt. 12.12.2014 in the name of Sh. Sunil Chhabra s/o Jetha Nand. Type of Possession Symbolic

DATE: 01.07.2022 PLACE. LUDHIANA

New Delhi

financialexp.ep

Place : Delhi

samdelhi@centralbank.co.in during office hours on all working days. Place: New Delhi

E-mail id: jbml.investor@jbmgroup.com Website: www.jbm-group.com

NOTICE (For Attention of Equity Shareholders of the Company)

In compliance with the above provisions, the Equity Shares of the Company in

The Company has also uploaded the relevant details of unpaid/ unclaimed dividend

The shareholders further note that when the above equity shares would transferred

Kindly note that all future benefits, dividends arising on such shares would also

Shareholders are requested to note that due date for claiming dividend for Financial view to complying with the requirements register their claims for unclaimed

Compliance Officer

CIN: L74999RJ1992PLC013387 Regd. Off: A-902A, RIICO Industrial Area, Phase-III,

NOTICE OF TRANSFER OF EQUITY SHARES OF THE COMPANY TO DEMAT ACCOUNT OF INVESTOR EDUCATION & PROTECTION FUND

To claim the outstanding dividend, kindly first ensure registration of correct bank details

and a cancelled cheque.

As per SEBI's circular dated November 03, 2021 and December 14, 2021, shareholders

In case the dividends are not claimed by the said date, necessary steps will be initiated

(a) Physical Forms may note that the Company would be issuing duplicate share

Dematerialized Form may note that the Company shall inform the depository by In the event of transfer of shares held by you and the unclaimed dividend to IEPF, you

> Thanking you Yours faithfully

> > Charanjit Singh Company Secretary

Kumar Verma s/o Sh.

Lal Singh 90'-00"

Ludhiana-141003

Chandigarh Road, Samrala

Jagpal Singh Riat

Awana, Ludhiana

DATE: 01.06.2022

Thapar.

Kumar Verma s/o Sh. Gajodhar Parsad and infull

12944, Street No. 16, wasika no. 31567 dated 29/03/2006, standing in other expenses and Vishawkarma Colony, the names of Sh. Parminder Singh s/o Sh. charges accrued, Millergani, Tehsil & District Jaswant Singh and Smt. Jaswinder Kaur w/o thereafter until payment

Limits of Samrala and bounded as under: East: thereon, until payment in Bondli Road 113', West- Plot of Surjit Kaur & Others 70' +41', North-Baljit Singh & Lfull Others 51'-6", South-Manjit Singh & Others 153'-5", as per transfer deed wasika no. 2018-19/108/1/646 dated 19/11/2018 registered by Sub-Registrar Samrala, standing in the name of Sh. Jasjit Singh Riat s/o Sh. 6. Borrower(s):- M/s Karan Industrial Plot 08.09.2021 29.06.2022 Physical possession Laces, Near Amrit Dharam measuring 233 Sq. Yds., comprised in Khasra No. Rs. 27,05,219,18/-

AUTHORISED OFFICER

Advt. No. J.S.V. 216 (2022-23)

Further details in this regard can be seen at http://govtprocurement.delhi.gov.in

ER. GAURAV SINGH YADAV EE (F&M) M-3

अमृत महोत्सव



दिल्ली जल बोर्ड: रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार कार्यालयः अतिरिक्त मुख्य अभियंता (एम)-3

आज़ादी≋ अमृत महोत्सव

एच-ब्लॉक, सेक्टर-15, रोहिणी, दिल्ली-89 संक्षिप्त प्रैस एनआईटी सं.6/(ईएंडएम)एम-3/2022-23

अनुमानित राशि	निविदा प्रॉसेसिंग शुल्क (आईएनआर में)	धरोहर राशि (आईएनआर में)	निविदा प्रकाशन की तिथि	निविदा की अंतिम तिथि एवं समय	पूर्णता अवधि
स क्लोरिनेशन प्वाइन्ट का मद दर	500.00	74000/-	30.6.2022	7.7.2022 के 1.00 बजे अप. तक	150 दिन
स क्लोरिनेशन प्वाइन्ट का मद दर	500.00	74000/-	30.6.2022	7.7.2022 के 1.00 बजे अप. तक	150 दिन
का प्रचालन तथा छोटा- मद दर	500.00	74000/-	30.6.2022	7.7.2022 के 1.00 बजे अप. तक	150 दिन
	अनुमानित राशि स क्लोरिनेशन प्वाइन्ट का मद दर स क्लोरिनेशन प्वाइन्ट का मद दर	अनुमानित निविदा प्रॉसेसिंग ग्रीश शुल्क (आईएनआर में) स क्लोरिनेशन प्वाइन्ट का मद दर 500.00	अनुमानित निविदा प्रॉसेसिंग धरोहर राशि राशि शुल्क (आईएनआर में) स क्लोरिनेशन प्वाइन्ट का मद दर 500.00 74000/-	राशि शुल्क (आईएनआर में) की तिथि (आईएनआर में) स क्लोरिनेशन प्वाइन्ट का मद दर 500.00 74000/- 30.6.2022	अनुमानित निविदा प्रॉसेसिंग धरोहर राशि निविदा प्रकाशन निविदा की अंतिम राशि शुल्क (आईएनआर में) की तिथि एवं समय तिथि एवं समय कि कि निविदा की अंतिम राशि एवं समय कि कि निविदा प्रकाशन कि निविदा की अंतिम राशि एवं समय कि कि निविदा प्रकाशन कि निविदा की अंतिम राशि एवं समय कि निविदा प्रकाशन कि निविदा प्रकाशन निविदा की अंतिम राशि एवं समय कि निविदा प्रकाशन निविदा प्रकाशन निविदा की अंतिम राशि एवं समय कि निविदा प्रकाशन निविदा प्रकाशन निविदा की अंतिम राशि एवं समय कि निविदा प्रकाशन निविदा प्रकाशन निविदा की अंतिम राशि एवं समय कि निविदा प्रकाशन निविदा की अंतिम राशि एवं समय कि निविदा प्रकाशन निविदा प्रकाशन निविदा प्रकाशन निविदा की अंतिम राशि एवं समय कि निविदा प्रकाशन निविदा की अंतिम राशि एवं समय कि निविद्य प्रकाशन निविद्य प्रकाशन निविद्य समय कि निविद्य प्रकाशन निविद्य प्रकाशन निविद्य प्रकाशन निविद्य प्रकाशन निविद्य समय कि निविद्य प्रकाशन निविद्य समय कि निविद्य प्रकाशन निविद्य प्रकाशन निविद्य समय कि निविद्य प्रकाशन निविद्य प्रकाशन निविद्य समय कि निविद्य प्रकाशन निविद्य समय कि निविद्य प्रकाशन निविद्य प्रकाशन निविद्य समय कि निविद्य प्रकाशन निविद्य प्रकाशन निविद्य समय कि निविद्य प्रकाशन निविद्य समय कि निविद्य प्रकाशन निविद्य समय कि निविद्य समय सम्बन्ध समय सम्बन्ध समय सम्बन्ध समय सम्बन्ध समय सम्बन्ध समय समय कि निविद्य समय समय सम्बन्ध समय समय समय समय सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध समय सम्बन्ध समय सम्बन्ध समय सम्बन्य समय सम्बन्ध सम्बन्ध समय सम्बन्ध समय सम्बन्ध समय समय सम्बन्ध समय सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध समय सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध समय सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्य सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्य

इस संदर्भ में अधिक विवरण वेबसाईट https://govtprocurement.delhi.gov.in पर देखें पी.आर.ओ. (जल) द्वारा जारी विज्ञा. सं. जे.एस.वी. 216(2022-23)

एविओम इंडिया हाउसिंग, फाइनांस प्राईवेट लिमिटेड

पंजी. कार्यालय: 83, प्रथम तल, पूर्वी मार्ग, बसंत विहार, नई दिल्ली-110057

CIN:U65993DL2016PTC291377

सार्वजनिक सूचना

एतदुद्वारा सुचित किया जाता है कि एविओम इंडिया हाउसिंग फाइनांस प्राईवेट लिमिटेड, हाउसिंग फाइनांस

कम्पनी ने अपनी शाखा कार्यालय शिवलोक हाउस 2, यूजीएफ, कार्यालय नं. 7 एवं 8, मिलन सिनेमा, के

सामने करमपुरा, नई दिल्ली से ई-53, फेज-2, प्रथम तल, पिलर नं. 417 के सामने, नांगलोई, दिल्ली-

निविदा सूचना आमंत्रित

टाटा पावर-डीडीएल निम्न मदों के लिए निविदाएं आमंत्रित करता है:

लागत / धरोहर

जमा राशि (रु)

4.50 Crs/

110041 में स्थानांतरित कर दिया गया है।

निविदा पूछताछ सं.

कार्य का विवरण

TPDDL/ENGG/ENQ/200001430/22-23

सम्पर्ण निविदा एवं शुद्धिपत्र दस्तावेज हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध

RC for supply of 1-P Meter Box

तिथि: 2 जुलाई, 2022

सभी संबंधितों से अनुरोध है कि उक्त सूचना का ध्यान रखें।

कार्यपालक अभियंता (ईएंडएम) एम-3 ''कोरोना रोकें; मास्क पहनें; शारीरिक दूरी का पालन करें; हाथों को स्वच्छ रखें''

एविओम इंडिया हाउसिंग फाइनांस प्राईवेट लिमिटेड के लिये

टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रिब्यूशन लिमिटेड

टाटा पावर एवं दिल्ली सरकार का संयुक्त उपक्रम रजि, आफिस : एनडीपीएल हाउस, हडसन् लाइन, किंग्सवे कम्प, दिल्ली–110009

फोन : 66112222, फैक्स : 27468042, ईमेल : TPDDL@tatapower-ddl.com

CIN No. : U40109DL2001PLC111526, वेबसाइंट : www.tatapower-ddl.com

दस्तावेज

की बिक्री

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

Jul 02, 2022

बोली जमा कराने की

अंतिम तारीख और समय/

निविदा खोलने

की तारीख और समय

23.07.2022:1630 Hrs

Contracts - 011-66112222

02.07.2022 23.07.2022;1600 Hrs

इंडियन बैंक 🔈 Indian Bank वित्तीय समावेशन विभाग, कॉपॉरेट कार्यालय, चेन्नै

इंडियन बैंक जो सार्वजनिक क्षेत्र का एक अग्रणी बैंक है, निम्नलिखित में अभिरुचि रखता है:

 संपूर्ण वित्तीय समावेशन समाधान हेत् तकनीकी सेवा प्रदाता (टीएसपी) के 2. बीसी प्रबंधन सेवाओं हेतु कॉर्पोरेट

को पैनलबद्ध करने हेत् अधिक जानकारी के लिए कृपया बैंक की

कारोबार प्रतिनिधि (सीबीसी) संस्थाओं

https://www.indianbank.in/tenders

एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड एच.एस.सी.सी (एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड की अनुषंगी) (HSCC)

(भारत सरकार का उद्यम) A Miniratna Co. ई—6ए, सैक्टर—01, नोएडा—201301 ई-निविदा आमंत्रण सूचना एनसीडीसी की ओर से एनबीसीसी द्वारा एचएससीसी के माध्यम से "एनसीडीसी, नई दिल्ली में **ईपीसी** मोड" (निविदा सं. एचएससीसी/एसईएस/बीएसएल-3/एनसीडीसी/2022) पर 'टर्नकी आधार' पर डीएलपी के दौरान प्रचालन एवं रखरखाव सहित बायो-सेफ्टी लेवल-3 (बीएसएल-3) प्रयोगशालाओं की योजना, डिज़ाइन, निर्माण, आपूर्ति, संस्थापन, जाँच, कमीशनिंग, कैलिब्रेशन, प्रमाणन, प्रदर्शन, प्रशिक्षण,

हस्ता/-

(गौरव सिंह यादव)

सत्यापन तथा अन्य सम्बद्ध कार्यों" के लिए योग्य निविदादाताओं से ऑनलाइन निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं। अनुमानित लागतः रु. 38.50 करोड़, पूर्णता अवधि- 15 माह। निविदा 06.07.2022 से ऑनलाइन उपलब्ध होगी और निविदाएँ जमा करने की अंतिम तिथिः 21.07.2022 को 15:00 बजे तक। विस्तृत एनआईटी ई-टेंडर पोर्टल http:www.tenderwizard.in/HSCC, एचएससीसी वेबसाइट www.hsccltd.co.in एवं सीपीपी पोर्टल पर उपलब्ध होगी। इस प्रकाशन का शुद्धिपत्र, यदि कोई होगा. तो उसे केवल वेबसाइटों पर प्रदर्शित किया जाएगा और प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

> मुख्य महा-प्रबंधक (पीजी-I), एचएससीसी (इंडिया) लि. कृते एनबीसीसी, नई दिल्ली की और से

KISAN SAHKARI CHINI MILLS LTD. NANAUTA(SAHARANPUR) RE-TENDER NOTICE SEASON 2022-23

Sealed Re-Tenders are invited from reputed contractors, authorized dealers, Manufacturers, Tenders for Supply/Contract job/Servicing AMC, Overhauling of different items for season 2022-23. Tenders will be available for Sale from date of Publication in Newspaper. Tenders will be opened on the Next day of Re- Tender Closing 3.00 pm & negotiation will be held if seems necessary. The tender documents with detailed specification, Make, Earnest money, Tender form fee Rs 200/- (Rs 200/- + 36/- GST), tender form, terms and conditions etc. can be found from purchase office or related offices in mill. Tenderers will have to deposit earnest money through bank details (Bank Name- P.N.B (THASKA) A/C No- 2028002100002564, I.F.S. Code PUNB0202800,) KISAN SAHKARI CHINI MILLS LTD. NANAUTA (SAHARANPUR in favour of mill society or credit earnest money tender form fees will be deposited in cash in mill cash counter as per details given in tender form. Right to reject & Date extension of any or all the tenders without assigning any reason is reserved with the undersigned. For Any Enquiry related to tenders can be contacted at Mob: - 9412848307

S. No.	Name of Items	EMD (in Rs.)	Last date of Tender Submission
1	FIRE FIGHTING	2000.00	08-07-2022
2.	HARDWARE GOODS	10000.00	08-07-2022
3.	NUT& BOLT	2000.00	08-07-2022
4.	V Belt, tyre coupling & tyres, CI pulley & Gear Coupling	4000.00	08-07-2022
5.	High flow pump spares	4000.00	08-07-2022
6.	Tool & Tackels etc.	2000.00	08-07-2022
7.	Tube Cleaning equipments	5000.00	08-07-2022
8.	Rubbergoods	5000.00	08-07-2022
9.	RubberConveyorbelt	2000.00	08-07-2022
10.	Vacuum filter repair/ servicing & spares	3000.00	08-07-2022
11.	Air Compressor spares, Servicing	4000.00	08-07-2022
Note	: Work experience in sugar mills will be preferred.	Gene	ral Manager

OSBI

website www.tatapower-ddl.com → Vendor Zone → Tender / Corrigendum Documents

एचआरएमएस विभाग, ग्लोबल आईटी सेंटर, भारतीय स्टेट बैंक, 4थी मंजिल, टावर नंबर 7, सीबीडी बेलापुर रेलवे स्टेशन बिल्डिंग, सेक्टर 11, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई – 400614, महाराष्ट्र

'ओईएम से मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) की खरीद' के लिए रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित करना

भारतीय स्टेट बैंक के मौजूदा एचआरएमएस एप्लिकेशन को अपग्रेड/बदलने के लिए मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली की खरीद के लिए योग्य ओईएम के चयन के लिए ईओआई आमंत्रित करता है, ईओआई और पात्रता मानदंड का विवरण बैंक की वेबसाइट https://bank.sbi पर 'प्रोक्योरमेंट न्यूज' अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है.

स्थान: नवी मुंबई उप- महाप्रबंधक तिथि: 02.07.2022 (आईटी-एचआरएमएस)

kotak

कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड जीकत कार्यालयः 27 बीकेसी, सी–27, जी–ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई–400051

पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) के अंतर्गत और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नयम ३ के साथ पठित धारा १३(१२) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, यहां नीचे विवरणितानुसार उधारकर्ता / ओं के मांग सूचनाएं निर्गत की थीं, जिनमें संबंधित उधारकर्ताओं को उक्त सूचनाओं में अंकित राशि का भुगतान की वास्तविक तिथि तक समस्त लागतों, शुल्कों और व्ययों के साथ सूचनाओं की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गय था। उक्त उधारकर्ता(गण) / सह—उधारकर्ता(गण) राषि का प्रतिभृगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतदद्वार उधारकर्ताओं / सह-उधारकर्ताओं तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित सम्पत्ति का, उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उनके प्रदत्त षक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, उसके साथ अंकित तिथियों को, आधिपत्य ग्रहण कर लिया है। उधारकर्ताओं को विषेष रूप तथा जनसाधारण को एतदद्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि सम्पत्तियों का लेन–देन न करें तथा सम्पत्तियों क कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन जो होगा, वह वहां उसमें यानी सूचना में विनिर्दिष्ट एक राशि और इस पर संबंधित तिथिये से भावी ब्याज, लागतों, शुल्कों हेतु कोटक महिंद्रा बैंक लि. के प्रभाराधीन होगा। उधारकर्ता का ध्यानाकर्षण प्रतिभत परिसंपत्तिय को छुड़वाने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित किय जाता है। उधारकर्ताओं, अनुसूचित संपत्ति, बकाया देयराशि, धारा 13(2) के अंतर्गत प्रेषित मांग सूचनाएं और उसके अंतर्गत अभ्यर्थित राशियां, आधिपत्य की तिथि के विवरण यहां इसमें नीचे दिए गए हैं:

उधारकर्ता, सह—उधारकर्ता के नाम तथा	अचल संपत्ति के विवरण	1. सांकेतिक आधिपत्य की तिथि			
पते/ऋण खाता संख्या/ऋण राशि श्री पवन कुमार गोयल पुत्र शंभू दयाल अग्रवाल एवं श्रीमती अंजू गोयल पत्नी श्री पवन कुमार गोयल एवं श्री शंभू दयाल अग्रवाल पुत्र श्री रिचू मल एवं श्रीमती सावित्री देवी गोयल पत्नी श्री शंभू दयाल अग्रवाल सभी निवासीः नाई वाली गली, कटरा बाजार राया, मथुरा—281204 ऋण खाता संख्याः पीआर00383343 संस्वीकृत ऋण राशिः रु. 19,50,000/— (रुपए उन्नीस लाख पचास हजार मात्र)	संपत्ति मापन क्षेत्र 124.79 वर्ग मीटर, जो नाई	2. मांग सूचना तिथि, 3. बकाया राशि रु. में 1) 29/06/2022 2) 29/12/2021			
किसी भी पूछताछ के लिए कृपया श्री सोमेश सुंद्रियाल (91 9910563402) और श्री विवेक कनौजिया (91 9911044214) से संपर्क करें। स्थानः राया, दिनांकः 02.07.2022 प्राधिकृत अधिकारीः कृते कोटक महिंद्रा बेंक लिमिटेड					

वास्तु हाउसिंग फाइनांस कॉर्पोरेशन लि. यूनिट 203 एवं 204, 2रा तल, ''ए'' विंग, नवभारत इस्टेट, जकारिया बंडर रोड, सेवरी (वेस्ट) मुम्बई-400015 महाराष्ट्र, CIN No.: U65922MH2005PLC272501

HOUSING FINANCE कब्जा सुचना (अचल सम्पत्ति के लिये)

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत वास्त हाउसिंग फाइनांस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्राधिकत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 18 जन. 2022 जारी कर ऋणधारक श्री/श्रीमती सतीश चन्द (आवेदक), श्री/श्रीमती किरण (सह-आवेदक) को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि खाता संख्या LP000000029203 के लिये रु. 4291395/-(रुपये बयालिस लाख इक्यानवे हजार तीन सौ पनचानवे मात्र) एवं रु. 198783/- (रु. एक लाख अन्ठानवे हजार सात सौ तिड़ासी मात्र) खाता संख्या LP000000071320 के लिये. 5 जनवरी 22 को बकाया वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक, इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि 28.06.2022 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतदृद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 4291395/-(रुपये बयालिस लाख इक्यानवे हजार तीन सौ पनचानवे मात्र) एवं रु. 198783/- (रु. एक लाख अन्ठानवे हजार सात सौ तिड़ासी मात्र)तथा उस पर ब्याज, लागत आदि के लिये वास्तु हाउसिंग फाइनांस कॉर्पोरेशन लिमिटेड शाखा के चार्ज के अधीन होगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण

ग्राम सबोली की लाल डोरा आबादी, गली नं. 1, सबोली, शाहदरा, दिल्ली-83 में स्थित सम्पत्ति सं. 6, खसरा नं. 285 के भाग में ''उक्त तल'' पर छत के अधिकार के साथ प्रथम तल एवं छत के अधिकार के बिना भूतल । तिथि: 02.07.2022

प्राधिकृत अधिकारी वास्तु हाउसिंग फाइनांस कॉर्पोरेशन लि. स्थानः दिल्ली

बोली के साथ जमा की

नीलामी तिवि

सीएफएम एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (सीएफएम-एआरसी) कॉरपोरेट ऑफिस: पहली मंजिल, वेकफील्ड हाउस, स्प्रोट रोड, बैलार्ड एस्टेट, मुंबई-400038 टेली: +91 22 4970 3233/ 4005 5282 अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

प्रतिभृति ब्याज (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के नियम 8(6) और 9(1) के प्रावधानों को देखें

ई- नीलामी बिक्री नोटिस एतदहारा आम जनता और विशेष रूप से ऋणी और गारंटर को दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियां सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी रखी गई हैं, जिसका करूज सीएफएम एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (सीएफएमएआरसी ट्रस्ट- 3 इंडसलैंड बैंक के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्य करते हुए) के अधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, सुरक्षित लेनदार, सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से "जैसा है और जहां है आधार", "जैसा है जो कुछ है आधार", "जो कुछ मौजूद है आधार" और "दिना रिकॉर्स के आधार" पर ऋग संख्य डीबीसी00120एन से संबंधित मैसर्स एलआई कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व नाम: गीपर कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और लेक्तलनोवा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड) (उधारकर्ता), राम नवल वर्मा (सह-उधारकर्ता), वैभव शर्मा (सह-उधारकर्ता), कृष्णा वर्मा (सह-उधारकर्ता), नीरज कुमार सिंह (सह-उधारकर्ता), सावित्री देवी (सह-उधारकर्ता/बंधक), पल्लवी वर्मा (सह-

उधारकर्ता) से राशि 31.07.2021 को 8,39,06,774/- रुपये (आठ करोड़ उनतीस लाख छह हजार सात सी चीहत्तर रुपये मात्र) के साथ आगे ज्याज, लागत और व्यय आदि की वसुली के लिए 21 जुलाई, 2022 को येचा जाएगा। संपत्तियों का आरक्षित मुल्य और बयाना जमा राशि नीचे दी गई है।

सरक्षित लेनदार उधारकर्ता, रेहनकर्ता

का नाम	और गारंटर के नाम	देवताएं	का विवस्ण	(लाख में)	जाने वाली वरोहर राहित (स्वाद्ध में)	निरीक्षण तिथि
सीएफएम एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (सीएफएम- एआरसी)	 मैससं एलआई कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व नामः गीपर कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और लेक्सलनोवा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड) 2. राम नवल वर्मा (सह-उधारकर्ता), 3. वैभव शर्मा (सह-उधारकर्ता), 4. कृष्णा वर्मा (सह- उधारकर्ता), 5. नीरज कुमार सिंह (सह-उधारकर्ता), 6. सावित्री देवी (सह- उधारकर्ता/बंधक), 7. पल्लवी वर्मा (सह-उधारकर्ता) 	ऋण खाता नं. डीबीसी00120एन से संबंधित 31.07.2021 को 8,39,06,774/- रुपये (आठ करोड़ उनतीस लाख छह हजार सात सौ चौहत्तर रुपये मात्र) के साथ उस पर आगे ब्याज, लागत और व्यय आदि	उप रिजस्ट्रार उत्तर जिला, दिल्ली के अधिकार क्षेत्र के भीतर और दिल्ली की क्षेत्रीय सीमा के भीतर (पंजीकृत बिक्री विलेख दिनांक 18.05.2012 के अनुसार) के अनुसार टैरेस और छत के अभिकार के साथ आकाश की ऊंचाई तक का निर्माण क्षेत्र, जो भूमि और जमीन धारक 32/18, अलीपुर रोड, सिविल लाइन्स, दिल्ली 110054 पर 500 वर्ग गज या 418 वर्ग मीटर के सभी अंग।	रु. (कवल दस करोड़ छह लाख रुपए)	1,00,60,000/- रु. (केवल एक करोड़ साठ हजार रुपए)	नीलामी तिथि: 21 जुलाई, 202 निरीक्षण तिथि: 15 जुलाई, 202 निरीक्षण का समय: दोपहर 2.00 बजे से साथ 5.00 बजे
			-0		A from	

अचल संपत्तियों

बिक्की के विस्तृत निवम और शतों को अचल संपत्तियों की बिक्की के लिए सुरक्षित लेनदार होने के नाते सीएफएम एआरसी द्वारा जारी दिनांक 01 जुलाई, 2022 की बिक्की नेटिस के साब पड़ा जाना चाहिए। नियम एवं झर्तेः

ए. संपत्तियां "जैसा है और जहां है आधार", "जैसा है जो कुछ है आधार", "जो कुछ मौजूद है आधार" और "चिना रिकॉर्स के आधार" चेची जाएगी। 🛍 सभी प्रस्ताव हमारे एआरसी की वेचसाइट http://www.cfmarc.in/assets-for-sale.php और (http://www.bankeauction.com) से बोली दस्तायेज डाउनलोड करके किए जाएंगे वा डिमांड झफ्ट डारा "सीएफरमएआरसी ट्रस्ट- उ इंडसइंड बैंक" के पक्ष में "मुंबई" में देव या ऑनलाइन मोड के माध्यम से नीचे दिए गए बिंदु (डी) में उल्लिखित बैंक खाते में। बी. इच्छक बोलीदाता ऑनलाइन बोली लगाने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं: मैसर्स सी। इंद्रिया प्राइवेट लिमिटेड से, पता: प्लॉट नंबर 1502, 15वीं मॅजिल, अंबादीप बिल्डिंग, 14, केजी मार्ग, नई दिल्ली-110001, ब्री हरीश गैदा, संपर्क नंबर +91 95945-97555, ईमेल: support@bankeauctions.com और हेल्प लाइन नंबर 0124-4302020/21/22, +91 72919-81124/1125/1126, द्वी. बोली निर्धारित प्रारूप में पोर्टल delhi@c1india.com पर ०३ जुलाई. 2022 को या उससे पहले सांय 5 बजे तक यानी (बोली जमा करने की ऑतम तिथि और समय) ऑनलाइन जमा की जाएगी। ई. इंएमडी डिमांड ड्राफ्ट (लाभावीं- सीएकएमएआरसी ट्रस्ट -3 इंडसइंड वैंक) के माध्यम से जमा किया जाएगा, जो कि पारे पर देव है। बोलीदाताओं को बोली के साथ आरटीजीएस/एनईएफटी निधि अंतरण या क्रास्ट हिमांड हाफ्ट/पे ऑडर का प्रमाण संलग्न/संलग्न करना होया।

खाता धारक	सीएफएमएआरसी ट्रस्ट- 3 इंडसइंड बैंच
खाता नंबर	201002542424
बैंक	इंडसइंड बैंक
शास्त्रा	ऑपेरा हाउस
IFSC Code	INDB0000001

एफ. ईएमडी के साथ बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि 20 जुलाई, 2022 शाम 5 बजे तक है। सभी बोलियां सीएफएम एआरसी के कार्यालय सीएफएम एसेट रिकंस्ट्रकान प्राइवेट लिमिटेड, (पहली मंजिल, वेकफील्ड हाइस, स्प्रोट रोड, बैलार्ड एस्टेट, मुंबई- 400038) को भेजी जानी हैं। और बिना ईएमडी राशि और या/आरक्षित मृल्य से कम की बोलियों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। **एव.** पोर्टल http://www.bankeauction.com पर ऑनलाइन नीलामी 21 **जुलाई**, 2022 को **सुबह** 11 बजे शुरू होगी। आई. सुरक्षित लेनदार को अचल संपत्तियों पर कोई जात ऋणभार नहीं है। जे, इच्छक पार्टियों को सलाह दी जाती है कि वे भूमि, भवन और अन्य विवरणों के क्षेत्र को स्वतंत्र रूप से सत्यापित करें। सरक्षित लेनदार सरक्षित संपत्ति में किसी भी त्रृटि/चुक/विसंगति/कमी आदि के लिए या किसी भी अनुमति, आदि की खरीद के लिए या कानून द्वारा स्थापित किसी भी प्राधिकरण की बकाया राशि के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है के. बोलियां खोलने के बाद, प्राधिकृत अधिकारी के पास बोलीदाताओं के बीच परस्पर बोली/आगे की बातचीत करने का अधिकार सुरक्षित है। आपसी बोलीकरण/बातचीत के बाद उनमें से सबसे अधिक बोली लगाने वाले को सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा। बोलीदाता अपने आगे के प्रस्तावों को 5,00,000/- 🛪 के गुणकों में सुधार सकते हैं। एल. विक्री सुरक्षित लेनदार द्वारा पृष्टि के अधीन होगी। एम. सफल बोलीदाता को बोली स्वीकार करने के तुरंत बाद यानी उसी दिन पर कुल बोली राशि/खरीद प्रतिफल का 25% (ईएमडी की राशि समायोजित करने के बाद) जमा करना होगा, लेकिन अगले कार्य दिवस के बाद नहीं और शेष 75% अचल संपत्तियों की बिक्री की पृष्टि के 15 दिनों के भीतर बोली राशि/खरीद या ऐसी विस्तारित अवधि, जिस पर क्रेता और सीएफएम-एआरसी, सरक्षित लेनदार द्वारा सहमति हो, किसी भी मामले में 3 (तीन) महीने से अधिक नहीं, जमा करना होगा। **एन**. यदि सफल बोलीदाता कपर बताए गए अनुसार शेष बिक्री मुल्य का भुगतान करने में विफल रहता है, तो ईएमडी सहित सभी जमा राशि को सीएफएम-एआरसी हारा उक्त सफल बोलीदाता को बिना किसी नोटिस के जब्त कर लिया जाएगा और संपत्तियों को फिर से बेचा जाएगा। ओ. असफल बोलीदाता की ईएमडी नीलामी बिक्री कार्यवाही बंद होने के 5 कार्य दिवसों के भीतर वापस कर दी जाएगी। ईएमडी वापस किए जाने पर कोई व्याज देय नहीं होगा। पी. क्रेता स्टाम्प शुल्क और प्रभारों को वहन करेगा, जिसमें बिक्री प्रमाणपत्र पंजीकरण शुल्क, सरकार को देय सभी वैधानिक देय राशि, कर और दरें, संपत्ति से संबंधित मौजदा और भविष्य दोनों शामिल हैं। **क्य**, सीएफएम–एआरसी के प्राधिकृत अधिकारी के पास बिना कोई कारण बताए नीलामी को स्थगित/रह करने का अधिकार सरक्षित है। **आर**. अधिक जानकारी के लिए, सीएफएम-एआरसी (मोबाइल नंबर 7208974553) की अधिकृत अधिकारी सुओं परनीत सिंह से किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय के दौरान संपर्क किया जा सकता है। एस. अधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदार विक्री की उक्त घोषणा में किसी भी त्रुटि, अशुद्धि या चृक के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) और नियम 9(1) के तहत वैधानिक 15 दिनों की बिक्री सचना

(हस्ता/-) अधिकृत अधिकारी सीएफएम एसेट रिकंस्ट्रक्लन प्राइवेट लिमिटेड स्थानः लखनऊ/नई दिल्ली (सीएफएमएआरसी ट्रस्ट-3 इंडसलैंड बैंक के ट्रस्टी के रूप में कार्यस्त)

एविओम इंडिया हाउसिंग, फाइनांस प्राईवेट लिमिटेड पंजी. कार्यालय: 83, प्रथम तल, पूर्वी मार्ग, बसंत विहार, नई दिल्ली-110057 CIN:U65993DL2016PTC291377

सार्वजनिक सूचना एतदुद्वारा सुचित किया जाता है कि एविओम इंडिया हाउसिंग फाइनांस प्राईवेट लिमिटेड, हाउसिंग फाइनांस

कम्पनी ने अपनी शाखा कार्यालय एससीओ-3, 3रा तल, पुडा कॉम्प्लैक्स, लाडोवाली रोड, जालंधर, पंजाब से एससीओ-3, 1ला तल, मॉडल टाउन एक्स्टेंशन, ब्लॉक-बी, लुधियाना में स्थानांतरित कर दिया गया है। सभी संबंधितों से अनुरोध है कि उक्त सूचना का ध्यान रखें।

तिथि: 2 जुलाई, 2022

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD. Navratna Company (A Govt. of India Undertaking) निविदा सूचना

(केवल ई-निविदा मोड) नेम्नलिखित कार्य डेत् केवल ईं–निविदा मोर्ड के माध्येम से एकल बोली प्रणाली में ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। बोली दरतावेज 1000.00 रुपये का ऑनलाइन भुगतान करने के उपरांत केवल वेबसाइट (www.tenderwizard.com/CCIL) से डाउनलोड किया जा सकता है।

खली निविदा सं.: CON/AREA-1/MMLP KATUWAS/TECH/O&M OF FIRE एमएमएलपी / कठूवास, राजस्थान में स्थित मीजूदा (पुराने) एवं नये घरेलू गोदाम 3 एव ४ में अधिष्ठापित अग्निशमन एवं अग्नि वेतावनी प्रणाली के प्रवालन एवं स्खरखाव डेर् कार्य का नाम रार्थिक रखरखाद अनुकं रु. 4657507 / — (जीएसटी सहित) अनुमानित लागत अनुबंध की अवधि 24 मार (अनुभाग-II के खंड-6 के अनुसार) वरोहर जमा राशि अनुभाग-l के खंड-4 के अनुसार दस्तायेज की लागत* रु. 1000 / – ई-भुगतान के माध्यम से सभी करों एवं शुल्कों सहित रु. 2748-ई-भूगतान के माध्यम से, जो अप्रतिदेय है। नेविदा प्रक्रिया शुल्क* 02.07.2022 को 15:00 बजे से 22.07.2022 को 16:00 बजे तक जमा करने की तिथि एवं समय 23,07,2022 को 15:00 बजे तक (कंवल ई-निविदा मोड) खलने की तिथि एवं समय 25.07 2022 को 15:30 बजे

'ई-भूगतान के माध्यम से कौनकौर के पास-बिना कोई कारण बताये किसी अथवा समस्त निविदाओं को रह करने का अधिकार सुरक्षित है। प विवरण के लिए www.tenderwizard.com/CCIL पर लॉग ऑन करें। समूह महाप्रबंधक / तकनीकी (क्षेत्र-।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार कार्यालय : एकजीक्यूटिव मजिस्ट्रेट/तहसीलदार (दिल्ली कैन्ट) एम्प्लॉयमेन एक्सचैंज बिल्डिंग, किर्वी प्लेस, दिल्ली कैन्ट, दिल्ली

एफ. नं. 1/टीएचई/डीसी/2021/1100-1105/डीसी तिथि : 31.5.2022 सार्वजनिक सुचना

एफ नं. 1/टीएचई/डीसी/2021/689/डीसी तिथि 27.08.2021 के माध्यम से सार्वजनिक सूचना के उपरांत आम जनता के साथ ही साथ भू-स्वामियों तथा इच्छुक पार्टियों को ग्राम-शाहबाद मोहम्मदपुर की राजस्व सम्पदा में भारतीय विपानपत्तन प्राधिकरण के लिये अधिग्रहित भूमि के डिमार्केशन के विषय में सूचित किया गया था। अब, सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि ग्राम शाहबाद मोहम्मदपु की राजस्व सम्पदा में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के लिये अर्जित भूमि का डिमार्केशन पूरा कर लिया गया है तथा डिमार्केशन का मानचित्र सभी भ्-स्वामियों तथा इच्छक पार्टियों की जानकारी के लिये तहसीलदार कार्यालय (दिल्ली कैन्ट) में उपलब्ध है। इच्छक पार्टी इस प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के भीतर दिल्ली भूमि राजस्व अधिनियम, 1954 के संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत अपना अपील दाखिल कर सकते हैं।

DIP-SHABDARTH-0179-22-23

नरेश चन्द डबास तहसीलदार (दिल्ली कैन्ट) जिला नई दिल्ली

जय भारत मारुति लिमिटेड (CIN: L29130DL1987PLC027342) **ाजी. कार्यालयः ६**०१ हंमकुन्त चेम्बस 89, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110 019

फोन: 011-26427104-06 फॅक्स: +91 11 26427100 ई-मेलः jbmLinvestor@jbmgroup.com वेबसाइटः www.jbm-group.com

Our milestones are touchstones सूचना

(कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के ध्यानार्थ) कंपनी के डिववटी शेयरों का निवेशक शिक्षा और संरक्षा कोष

(आईईपीएफ) प्राधिकरण में स्थानांतरण यह नोटिस निवेशक शिक्षा और संरक्षा कोष प्राधिकरण (लेखांकन, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण

और रिफंड) नियम, 2016, समय-समय पर यथा संशोधित ('नियम') के साथ पठित कंपनीज अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के अनुच्छेद 124(६) के प्रावधानों के अनुसरण में प्रकाशित उपर्युक्त प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी के इक्विटी शेयर्स, जिनके संबंध में लगातार सात या

अधिक वर्षों के लिए लामांश का भुगतान नहीं किया गया है अथवा दावा नहीं किया गया है उन्हें निवेशक शिक्षा और संरक्षा कोष (आईईपीएफ) प्राधिकरण के डीमैट खाते में स्थानांतरित करना अपेक्षित है। ऐसे सभी शेयरधारकों को जिनके शेयर उक्त नियमों के अधीन आईईपीएफ में स्थानांतरित किए जाने हैं, उनके उपलब्ध पते पर व्यक्तिशः पत्र भेजे गए हैं।

कंपनी ने देय अदत्त/अदावाकृत लाभांश के संगतविवरण, ऐसे शेयरधारकों के नाम और उनके फोलियो नंबर अथवा डीपी आईडी-क्लायंट आईडी साथ में उनके शेयरों के पूर्ण विवरण, जो कि आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं, अपनी वेबसाइट www.jbm-group.com पर भी अपलोड कर दिए हैं। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे यह नोट कर लें कि अदावाकृत लामांश और आईईपीएफ को

स्थानांतरित शेयर्स, ऐसे शेयर्स पर अर्जित सभी लामों सहित, यदि कोई है, का पुन: दावा उनके द्वारा आईईपीएफ नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात आईईपीएफ प्राधिकरण से ही किया जा सकता है। शेयरधारक आगे नोट कर लें कि जब उपर्युक्त इक्विटी शेयर्स आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट

खाते में स्थानांतरित हो जाएंगे तब ऐसे शेयर्स शेयरघारकों के लिए बिक्री अथवा स्थानांतरण अथवा किसी भी प्रकार के संव्यवहार के लिए, कंपनीज अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 124(6) के ऊपर वर्णित नियमों में निर्धारित प्रावधानों और प्रक्रिया के अनुरूप मामलों को छोड़कर, **उपलब्ध नहीं होंगे**। यह नोट कर लिया जाए कि आईईपीएफ नियमों के अनुसरण में अदावाकृत लामांश और आईईपीएफ को स्थानांतरित शेयर्स के संबंध में कंपनी के विरूध किसी प्रकार का कोई दावा नहीं रहेगा। यद्यपि शेयरधारक अदावाकृत लाभांश राशि और संबंधित शेयर्स की वापसी का दावा आईईपीएफ वेबसाइट अर्थात www.iepf.gov.in पर उपलब्ध नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके और अपेक्षित फीस का भुगतान कर के वेब आधारित फार्म आईईपीएफ–5 में आवेदन प्रस्तुत करते हुए कर सकते हैं।

कृपया नोट करलें कि ऐसे शेयर्स पर भविष्य में अर्जित सभी लाभों, लाभांशों को भी आईईपीएफ में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे यह नोट कर लें कि वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए लाभांश का दावा करने के लिए देय तिथि 22 सितंबर, 2022 है, अतः शेयरधारकों से अनुरोध है कि व भूगतान नहीं हुए लाभांश का दावा 22 सितंबर, 2022 तक कर लें अन्यथा आगे बगैर कोई सूचना दिए कंपनी शेयर्स को आईईपीएफ में स्थानांतरित करने के लिए मज़बूर होगी, अपेक्षाओं की अनुपालना को ध्यान में रखते हुए अदावाकृत लाभांश के लिए अपने दावें या तो कंपनी के पास उपर्युक्त पते पर अथवा एमसीएस शेयरट्रांसफर एजेंट लिमिटेड, कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयरट्रांसफर एजेंट को एमसीएस शेयरट्रांसफर एजेंट लिमि. एफ–65, प्रथमतल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेस-। नई दिल्ली-110020 के पास अथवा ई-मेल

jbml.investor@jbmgroup.com और ravi.arora@jbmgroup.com पर रजिस्टर करें ।

कृते जय भारत मारूति लिमिटेड

तिथि : 29.06.2022 स्थान : गुरुग्राम

(रवि अरोडा) कंपनी सचिव और अनुपालना अधिकारी

प्ररूप क

सार्वजनिक घोषणा

[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 6 के अधीन]

विक्टर ड्रॉप फोर्जिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानाकर्षण के लिए

	3"	111 1-11/11 - 11
1.	कार्पोरेट ऋणी का नाम	विक्टर ड्रॉप फोर्जिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
2.	कार्पोरेट ऋणी के निगमन की तिथि	07/08/1987
3.	वह प्राधिकार, जिसके अधीन कार्पोरेट ऋणी निगमित/रजिस्ट्रीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज-चण्डीगढ़
4.	कार्पोरेट पहचान संख्या/ कार्पोरेट ऋणी का सीमित दायित्व पहचान संख्यांक	U29265PB1987PTC007591
5.	कार्पोरेट ऋणी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय और प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	
6.	कापोरेट ऋणी की बाबत दिवाला प्रक्रिया प्रारंभ होने की तारीख	25.06.2022 (आदेश की प्रति आईआरपी को ई–मेल द्वारा 29.06.2022 को उपलब्ध कराई गई)
	दिवाला समाधान प्रक्रिया के समाप्त होने की प्राक्कलित तिथि	(सीआईआरपी प्रारम्भ होने की तिथि से 180 दिन)
8.	अन्तरिम समाधान व्यावसायिक के रूप में कार्य करने वाले दिवाला व्यावसायिक का नाम और रजिस्ट्रीकरण संख्यांक	गौरव श्रीवास्तव IBBI/IPA-003/IP-N00285/2020-2021/13253
9.	अन्तरिम समाधान च्यावसायिक का, बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत पता और ई-मेल	फ्लैट नं. 908, चार्म्स सॉलिटेयर, अहिंसा खण्ड-2, इन्दिरा पुरम गाजियाबाद ई-मेल : srivastava.law@gmail.com
10.	अन्तरिम समाधान व्यावसायिक के साथ पत्र-व्यवहार के लिए प्रयुक्त पता और ई-मेल	फ्लैट नं. 908, चार्म्स सॉलिटेयर, अहिंसा खण्ड-2, इन्दिरा पुरम् गाजियाबाद ई-मेल : victordropforgings@gmail.com
11.	दावा प्रस्तुत करने हेतु अन्तिम तारीख	13/07/2022 (चूंकि आदेश की प्रति आईआरपी को 29.06.2022 के उपलब्ध कराई गई, इस प्रकार तब से 14 दिन परिगणित किये गये)
	21 की उप-धारा (6क) की खण्ड (ख) के अधीन लेनदारों के वर्ग, यदि कोई हैं	2
13.	किसी वर्ग में लेनदारों के प्राधिकृत प्रतिनिधियों के रूप में कार्य करने के लिए अभिलक्षित दिवाला व्यावसायिकों के नाम (प्रत्येक वर्ग के लिए तीन नाम)	आईआरपी को उपलब्ध सूचना के अनुसार प्रयोज्य नहीं
14.	(क) सुसंगत प्ररूप और (ख) प्राधिकृत प्रतिनिधियों के ब्यौरे यहाँ उपलब्ध हैं :	(क) प्रासंगिक प्रपत्र https://www.ibbi.gov.irvhome/downloads पर उपलब्ध है (ख) अप्रयोज्य

यह सुचना दी जाती है कि माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, चण्डीगढ़ ने विक्टर ड्रॉप फोर्जिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के विरुद् दिनांक 28.06.2021 को (आदेश की प्रति आईआरपी को 29.06.2022 को उपलब्ध कराई गई) कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिय आरम्भ करने का आदेश दिया है।

विक्टर डॉप फोर्जिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के सभी लेनदारों से अन्तरिम समाधान व्यावसायिक को प्रविष्टि सं. 10 के सामने उल्लिखित प पर 13.07.2022 को अथवा उससे पूर्व सबुत सिहत अपने दावे प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है। वित्तीय लेनदार सबुत सहित अपने दावे केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से प्रस्तुत करेंगे। अन्य सभी लेनदार सबुत सहित अपने दावे व्यक्तिग

रूप से, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से प्रस्तुत कर सकते हैं। दावे के मिथ्या या भ्रामक सबूत प्रस्तुत करने पर शास्तियां लागू होंगी।

तिथि : 01.07.2022 स्थान : जालन्धर

गौरव श्रीवास्त अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल विक्टर डॉप फोर्जिंग्स प्राइवेट लिमिटेड IBBI/IPA-003/IP-N00285/2020-2021/13253

डीसीएम ह्युंडई लिमिटेड

CIN: U93090DL1995PLC273604 पंजी. कार्यालय : 508, 5वां तल, आकाश दीप बिल्डिंग, 26-ए, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001 फोन: 011-43745075, ई-मेल: pawanlakhotia@dcmsr.com, वेबसाइट: http://www.dcmcontainers.com

कम्पनी के शेयरघारकों के ध्यानार्थ सूचना

कम्पनी की 28वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम), कम्पनी अधिनियम, 2013 के सभी लागू प्रावधानों और तदधीन विरचित नियमों के साथ पठित कार्पोरेट मंत्रालय हारा जारी सर्कुलर नंबर 02 / 2022 दिनांकित 05.05.2022 तथा 19 / 2021 दिनांकित 08.12.2021 तथा अन्य लाग सर्कलर्स (सामडिक रूप से "एमसीए सर्कलर्स" कहे गए हैं) के अनुपालन में, वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स (ओएवीएम) के माध्यम से शनिवार, 30 जुलाई, 2022 को पूर्वा, 11.00 बजे, ई–एजीएम आयोजन की सूचना दिनांकित 18 मई, 2022 में सूचीबद्ध व्यवसाय नेष्यादित करने हेत्, आयोजित की जाएगी। सदस्यगण www.evotingindia.com पर वीसी / ओएवीएम के माध्यम में ई–एजीएम में भाग ले सकेंगे। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से भाग ले रहे सदस्यों की गणना कम्पनी

अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अधीन गणपूर्ति के प्रयोजन हेतु की जाएगी। संबद्ध सर्कुलर्स के अनुपालन में, एजीएम की सूचना तथा वित्तीय वर्ष 2021–22 हेत्, वित्तीय विवरण, बोर्ड और नेखापरीक्षकों की रिपोर्ट्स और उनके साथ संलग्न किए जाने हेतु अपेक्षित अन्य दरतावेजों की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां, कम्पनी के उन सभी सदस्यों को मेजी जा चुकी हैं, जिनका ई—मेल पता कम्पनी/डिपॉजिटरी गर्टिसिपैट(पार्टिसिपैंट्स) के पास 01 जुलाई, 2022 को पंजीबद्ध है। उपरोक्त दस्तावेज कम्पनी की वेबसाइट

www.dcmcontainers.com पर और सीडीएसएल की वेबसाइटwww.evolingindia.com पर भी उपलब्ध होंगे। नदस्यों से अनुरोध है कि कम्पनी से वार्षिक रिपोर्ट्स, सर्कुलर्स इत्यादि सहित सभी सूचनाएं इलेक्ट्रॉनिक विधि से प्राप्त करने के लिए अपना ई—मेल पता पंजीकत / अद्यतित करवा लें। ादस्यगण, जो विच्छोदन तिथि अर्थात 22.07.2022 को शेयरों के भौतिक या अभौतिक रूप में धारक हैं, एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध व्यवसाय पर अपना वोट ई—वोटिंग सुविधा (सीडीएसएल द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली

तदद्वारा सभी सदस्यों को सुचित किया जाता है कि : क) रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अथवा एजीएम में वोट ढालने की ग्राहाता निर्धारण के लिए कट-ऑफ तिथि

शुक्रवार, 22 जुलाई, 2022 है। कोई भी व्यक्ति, जिसका नाम डिपॉजिटरीज द्वारा अनुरक्षित सदस्यों के रिजस्टर अथवा लामार्थी स्वामियों के रिजस्टर में कट-ऑफ तिथि को दर्ज मीजूद होगा, केवल वही व्यक्ति रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम में वोटिंग की सुविधा का लाभी प्राप्त करने का हकदार होगा। ख) रिमोट ई-वोटिंग ब्रधवार, 27 जलाई, 2022 को (पूर्वा, 10,00 बजे आईएसटी) आरंग होगी तथा शुक्रवार,

ग) सूचना उन सदस्यों को ई—मेल द्वारा 01 जुलाई, 2022 को भेजी जा चुकी है, जिनके नाम 24 जून, 2022 को सदस्यों के रजिस्टर / लामार्थी स्वामियों की सूची में मीजूद थे। जिन सदस्यों ने सूचना मेल किए जाने के बाद और कट-ऑफ तिथि अर्थात 22.07.2022 से पहले शेयर अर्जित किए हैं, इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा वोट डालने के अपने अधिकार के प्रयोग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड जारी करवाने के लिए कम्पनी के आरटीए नामतः बीटल फाइनैशियल कम्प्यूटर सर्विसेज प्रा. लि. (बीटल) से सम्पर्क करें।

 इं-वोटिंग की सुविधा ई-एजीएम के दौरान भी उपलब्ध कराई जाएगी तथा ई-एजीएम में उपस्थित वे सदस्य जिनने अपना वोट रिमोट ई-वोटिंग द्वारा नहीं डाला है, ई-एजीएम में ई-वोटिंग द्वारा वोट डाल

घ) यदि कोई व्यक्ति रिमोट ई—बोटिंग के लिए सीडीएसएल के साथ पहले से पंजीबद्ध है, वह अपनी विद्यमान

युजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग अपना वोट डालने के लिए कर सकता है।

भौतिक रूप में, भौतिक रूप में शेयरों के धारक सदस्यों के लिए और जिन सदस्यों ने अपना ई–मेल पता जीकुल नहीं करवाया है, उनके लिए रिमोट ई≕वोटिंग की विध एजीएम की सूचना में दी गई है। इस संबंध में, गैतिक रूप में शेयरों के धारक जिन सदस्यों ने अपना ई—मेल पता कम्पनी में पंजीकृत / अद्यतित नहीं करवाया है. उनसे अनुरोध है कि वे उसका पंजीकरण / अद्यतनीकरण कम्पनी को pawanlakholia@dcmsr.com पर अथवा बीटल को beetalrta@gmail.com पर फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की रकेन प्रति (फ्रंट और बैंक), पैन और आधार कार्ड की स्व—सत्यापित स्कैन प्रति जैसे विवरण के साथ लिखकर करवा लें।

किसी पूछताछ के लिए, सदस्यगण कम्पनी से pawanlakhotia@domsr.com पर अथवा कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेन्ट्स नामतः बीटल फाइनैंशियल कम्प्यूटर सर्विसेज प्रा. लि., कार्यालय पताः बीटल हाउस, तृतीय तल, 99 मदनगीर, एलएससी के पीछे, नई दिल्ली—110062, ई—मेल आईडी : beetalrta@gmail.com अथवा सीडीएसएल से helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अथवा 022—23058738 और 022—23058542/43 पर

वास्ते डीसीएम ह्युंडई लिमिटेड

नतिन जैन निदेशक

एक्सिस हाउस, टावर-2, दूसरी मंजिल,1-14, सेक्टर-128, नोएडा एक्सप्रेसवे, जेपी ग्रीन्स विशटाउन, नोएडा-201301, यू.पी. एक्सिस वैंक लिमिटेड, तीसरी मंजिल, गिगाप्लेक्स, एनपीसी-1, टीटीसी इंडस्ट्रियल एरिया, मृगलसन रोड, ऐरोली, नवी मुंबई -400708 **पंजीकृत कार्यालयः** "त्रिशूल", तीसरी मंजिल,समर्थेश्वर मंदिर लॉ गार्डन के सामने एलिसब्रिज अहमदाबाद-380006

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत अचल संपत्तियों की

लेनदार के अधिकृत अधिकारी द्वारा कर लिया गया है। जिसकी बिक्री ऋण संख्या PHR079201128494 के अंतर्गत 1. श्री नरेंद्र कुमार और 2. श्री रघुबर सिंह से सरक्षित लेनदार के बकायों के कारण दिनांक 27.06.2022 की स्थिति के अनुसार बकाया रु 47,08,521 / – (सैतालीस लाख आठ हजार पांच सौ इक्कीस रुपये मात्र) एवं भविष्य के ब्याज और लागत की वसूली के लिए "जैसा है जहां है", " जो है जैसा है" और "जो कुछ भी हैं पर दिनांक 03.08.2022 को बेचा जाएगा। कृपया आवश्यक विवरण के लिए संलग्न नीलामी अनुसूची देखें:

over (viC ->\f ->\	
ज्ञात भार (यदि कोई हो):	ज्ञात नहीं
आरक्षित मूल्य (रुपये में)	रु. 45,06,735 / — (पेंतालीस लाख छह हजार सात सौ पेंतीस रुपये मात्र)
धरोहर जमा राशि (रुपये में)ः	रु.4,50,673.50 / — (रु. चार लाख पचास हजार छह सौ तिहत्तर और पचास पैसे मात्र)'एक्सिस बैंक लिमिटेड' के पक्ष में एवं दिल्ली में देय डीडी / पीओ के माध्यम से ।
बोली वृद्धि राशिः	रु. 10,000 / — (केवल दस हजार रुपये)
ईएमडी के साथ बोलियां/निविदा जमा करने की अंतिम तिथि, समय और स्थानः	2 अगस्त, 2022 तक, अधिकतम सायं 05:00 बजे तक, एक्सिस हाउस, टावर—2, दूसरी मंजिल, 1—14, सेक्टर—128, नोएडा एक्सप्रेसवे, जेपी ग्रीन्स विशटाउन, नोएडा—201301, यू.पी. श्री अभिनव कुमार पांडेय को संबोधित।
सार्वजनिक ई—नीलामी हेतु दिनांक, समय और स्थान :	3 अगस्त, 2022 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे। इसके वेब पोर्टल https://www.bankeauctions.com पर प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ । ई—नीलामी बोली प्रपत्र, घोषणा आदि सहित ई—नीलामी निविदा दस्तावेज उपरोक्त विवरण के अनुसार सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

अनुसूची—संपत्ति का विवरण

प्लॉट नंबर-59, मुस्तितिल नंबर-97 में से 129 वर्ग गज का क्षेत्रफल, किला नंबर 1/1.1/3 मिन, 2, 12/1, 8/2, 9,20/3, 1/3, मिन, 11/1,मुस्तितल नं 93, किल्ला नं 23/2, मिन प्लॉट नं–59, क्षेत्रफल -129 वर्ग गज, एसजीएम नगर, फरीदाबाद हरियाणा के साथ-साथ उस भवन के नीचे की भृमि में हिस्सा और हित जिसमें उक्त संपत्ति स्थित है और सामान्य क्षेत्रों एवं भवन योजना परिसर में प्रदान की जाने वाली सुविधाओं और (बिक्री विलेख के अनुसार) के अनुसार चौहद्दी : पूर्वः बिक्री विलेख के अनुसार, पश्चिमः बिक्री विलेख के अनुसार, उत्तरः बिक्री विलेख के अनुसार, दक्षिणः बिक्री विलेख के अनुसार।

https://www.axisbank.com/auction-retail और बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पोर्टल https://www.bankeauctions.com पर दिए गए लिंक को देखें। नीलामी, बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से उनके वेब पोर्टल https://www.bankeauctions.com पर ऑनलाइन आयोजित की जाएगी।

किसी अन्य सहायता के लिए इच्छुक बोलीदाता श्री अभिनव कुमार पांडे, बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के मोबाइल संख्या +91-9911906502 से कार्यालय समय के दौरान सुबह 9:30 बजे से शाम 4:00 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। दिनांक -29.06.2022 हस्ता /- प्राधिकृत अधिकारी

एक्सिस बैंक लिमिटेड

शिवालिक एग्रो पॉली प्रोडक्ट्स लिमिटेड

CIN: U15131HP1976PLC003703 पंजी. कार्यालयः प्लॉट नं. 1, सैक्टर-3, इंडस्ट्रियल एरिया, परवाण् (हि. प्र.)-173220

फोन नं. 0172-2227087-88, फैक्स नं: 0172-2270349,

विषय: निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि (आइईपीएफ) प्राधिकरण के खाते में शेयरधारकों द्वारा अर्जित कंपनी के अदायाकृत लाभांश (वि. व. 2014-15) तथा समरूपी इक्विटी शेयरों का हस्तांतरण

2016 (तिथि तक किए गए संशोधन)(नियम) और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 के प्रावधानों के अनुवर्ती सदस्यों को एतद्वारा सुचना दी जाती है कि 31,03,2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अदावाकत लाभांश और शेयर धारकों द्वारा अजिंत उनके समरूपी शेयरों, यदि कोई है, जिसका वित्तीय वर्ष 31,03,2015 से या पिछले 7 वर्षों के लिए लाभांश का दावा या अदत नहीं किया गया, को निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि (आइईपीएफ) को 07.10.2022 को या उसके बाद इस्तांतरण करने के लिए निश्चित किया जाएगा। कंपनी ने उचित कार्यवाही करने के लिए उन संबंधित शेयरधारकों को उनके नवीनतम उपलब्ध पतों पर व्यक्तिगत तौर पर संप्रेषण किया है जिनके लाभांश और शेयर कथित नियमों के अंतर्गत आइईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित किए जाने के लायक हैं।

कंपनी ने अपनी वेबसाइट www.shivalikagropoly.com के वैब लिंक http://www.shivalikagropoly.com/list_of_unclaimed_dividend_for_TRF_to_IEPF.aspx और http://www.shivalikagropoly.com/list_of_share_for_TRF_to_IEPF.aspx पर आइइंपीएफ प्राधिकरण के खाते में हस्तांतरण के लिए निश्चित लाभांश की राशि और शेयरों की संख्या वर्णित करते हुए ऐसे शेयर धारकों का पूर्ण विवरण अपलोड किया है। संबंधित शेयरधारकों से उपरोक्त कथित तिथि अर्थात 07.10.2022 से पहले उनकी अदावाकृत लाभांश राशि का दावा करने का अनुरोध है, जिसमें असफल रहने पर कंपनी संबंधित नियमों और कानून के कथित प्रावधानों के अनुसार आइईपीएफ प्राधिकरण के खाते में अदावाकृत लाभांश और संबंधित शेयरों का हस्तांतरण करने की कार्यवाही करेगी। शेयरधारक नोट करें कि अदावाकत या अदत्त लाभांश और समरूपी शेयर दोनों के साथ ऐसे शेयरों पर अर्जित सभी लाभ, यदि कोई है, एक बार आइईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित किए जाने के बाद नियमों के अनसार निर्धारित निम्नलिखित

संबंधित शेयरधारक, जो भौतिक रूप में शेयरधारक और जिनके शेयर आइईपीएफ प्राधिकरण के डीमैंट खाते में हस्तांतरित करने के योग्य हैं, नोट करें कि नियमों के अनुसार कंपनी आइईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में ऐसे शेयर स्थानांतरित करने के उद्देश्य के लिए उनके द्वारा अर्जित मुल शेयर प्रमाण पत्र की जगह नए शेयर प्रमाण पत्र जारी करेगी और ऐसे मामलों में, मुल शेयर प्रमाण पत्र जो उनके नाम से पंजीकृत है वह स्वतः रह और अस्वीकार्य समझा जाएगा। शेयरधारक आगामी तौर पर नोट करें कि कंपनी द्वारा अपनी वैचसाइट पर अपलोड किए गए विचरण नियमीं की अनुवर्ती आइईपीएफ प्राधिकरण के डीमैंट खाते में शेयरों का स्थानांतरण के उद्देश्य के लिए कंपनी द्वारा नए शेथर प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में पर्याप्त सुचना के तौर पर

शेयरधारकों को किसी भी विषय पर कोई पूछताछ होने के मामले में, वे कंपनी शेयर ट्रांसफर एजेंट अभिप्रा कैपिटल लिमिटेड, श्री जीवत राय, टेली: 011-42390725, ई-मेल: rta@abhipra.com या कंपनी शिवालिक एग्रो पॉली प्रोडक्ट्स लिमिटेड, श्री बी एल जैन बी-45, फेन-III, इंडस्ट्रियल एरिया, मोज्ञाली-160055 (पंजाय) फोन: 0172-2227087-88, फैक्स: 0172-2270349, ई-मेल: bljain@sappl.co.in पर संपर्क कर सकते हैं।

रधानः मोहाली (पंजाब)


दिनांक: 01.07.2022

www.readwhere.com

तिथि: 01.07.2022







एविओम इंडिया हाउसिंग फाइनांस प्राईवेट लिमिटेड के लिये

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ती

रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम में ई-वोटिंग सिस्टम) के माध्यम से डाल सकते हैं।

29 जुलाई, 2022 को (अप. 05.00 बजे आईएसटी) समाप्त होगी।

घ) सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार वोट डाल दिए जाने के बाद उसमें परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।

व) सदस्यगण जो ई-एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट ढाल चुके हैं, वे भी ई-एजीएम में वीसी / ओएवीएम के जरिये उपस्थित रह सकते हैं परंतु उनको पुनः मतदान करने का अधिकार नहीं होगा

श्री स्वर्ण कमार जैन, कार्यरत कम्पनी सेक्रेटरी (सी.पी. नंबर 4906) को रिमोट ई—वोटिंग तथा एजीएम के दीरान वोटिंग हेत् संवीक्षक नियुक्त किया गया है।

सम्पर्क कर सकते हैं।

स्थान : नई दिल्ली दिनांक: 01.07.2022 बुदरा ऋण एवं भुगतान समूह (स्थानीय कार्यालय∕शाखा)

अचल संपत्ति की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना

बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना। वर्णित अचल संपत्ति सरक्षित लेनदार को गिरवी / चार्ज की गई है, जिसका भौतिक कब्जा सरक्षित

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए,कृपया सुरक्षित लेनदार की वेबसाइट यानी

स्थान –नोएडा

संयुक्त कार्यालय: बी-45, फेन्न III, इंडिस्ट्रियल एरिया, मोहाली (पंजाब)-160055

ई-मेल: saplmoh@sappl.co.in, येबसाइट: shivalikagropoly.com सूचना (कंपनी के इक्किटी शेवरधारकों के ध्यानार्थ)

निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण और वापसी) नियम,

प्रक्रिया के बाद आइईपीएफ प्राधिकरण से उन पर दोबारा दावा कर सकता है।

कृते शिवालिक एग्रो पॉली प्रोडक्ट्स लिमिटेड, बी. एल. जैन, फाइनेन्स कंट्रोलर तथा कंपनी सचिव